

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 30—जून 5, 2015 (ज्येष्ठ 9, 1937)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30—JUNE 5, 2015 (JYAISTHA 9, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अप्रैल 2015

सं. डीपीपर्स.I/2015/97/3/40/2007—श्री रत्न संजय, भा.पु.से. (बिहार : 1998), पुलिस उपमहानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली की सेवाएं केन्द्र में उनके कार्यकाल पूरा होने के फलस्वरूप प्रत्यावर्तन पर दिनांक 14.04.2015 के अपराह्न से बिहार सरकार को वापस सौंपी जाती हैं।

हस्ता./- अपठनीय
उप निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 7 मई 2015

सं. डीपीपर्स.1/2015/0099/3/67/2012—राष्ट्रपति, श्री वी.चंद्रशेखर, भा.पु.सेवा (जीजे : 2000) को दिनांक 10.04.2015 के पूर्वाहन से दिनांक 09.09.2017 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

हस्ता./- अपठनीय
उप निदेशक (प्रशासन)

गृह मंत्रालय
महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 मई 2015

सं. ओ-दो-6039/2015-कार्मिक.डी.ए.-4—खेद सहित अधिसूचित किया जाता है कि दिनांक 25/04/2015 (पूर्वा0) को धूरघाट क्षेत्र, थाना- केशकाल, जिला-कोण्डागॉव (छत्तीसगढ़) में चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान के दौरान श्री जितेन्द्र सिंह राठौर, उप कमान्डेण्ट, 188 बटालियन के0रि0पु0बल अचानक गिर कर बेहोश हो गए व बाद में ईलाज के दौरान अधिकारी का आकस्मिक निधन हो गया। इस प्रकार अधिकारी ने सक्रिय परिचालन ड्युटी के दौरान अपने जीवन का बलिदान किया। तदनुसार, अधिकारी को इस बल की नफरी से दिनांक 25/04/2015 (अपराहन) से निकाला जाता है।

मूल चन्द पंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 मई 2015

सं0 ई-16015/70/आई0बी0/09/कार्मिक-1/633—प्रतिनियुक्ति विभाग (आसूचना) से मूल विभाग में प्रत्यावर्तन होने पर केओसुब के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से केओसुब की नफरी में लिया गया है :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्रीमति	पद	प्रतिनियुक्ति विभाग का नाम	केओसुब की नफरी में लिए जाने की तारीख	केओसुब में पदभार ग्रहण करने की तारीख व इकाई का नाम
01	एस0श्रीनिवास बाबू	वरिष्ठ कमांडेन्ट	मंत्रिमण्डल सचिवालय नई दिल्ली	06/04/2015(पूर्वाहन)	27/04/2015(पूर्वाहन) समुह मुख्यालय, हैदराबाद

हस्ता./-अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ

नई दिल्ली 110001, दिनांक 14 मई 2015

सं. 14052015900/ए. प्रशासन/130/गजट अधिसूचना/2015—निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को उनके सामने दर्शाई तिथि से अगले आदेशों तक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्रम संख्या	नाम (सर्व श्री / श्रीमती)	कार्यालय जहां वर्तमान में कार्यरत है	पदोन्नति की तिथि
1.	एस. नरसिंहामूर्ति	उपनिदेशक लेखापरीक्षा (नौ सेना), मुम्बई	30-06-2014
2.	लखामी सिंह	निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, मेरठ कैंट	22-09-2014

क्रम संख्या	नाम (सर्व श्री / श्रीमती)	कार्यालय जहां वर्तमान में कार्यरत है	पदोन्नति की तिथि
3.	सतबीर सिंह	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौ सेना), नई दिल्ली	13-10-2014
4.	रणवीर सिंह पठानीया	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, जम्मू	01-01-2015
5.	उषा नौटियाल	निदेशक लेखापरीक्षा (वायु सेना), देहरादून	11-03-2015
6.	श्रीप्रकाश मिश्रा	निदेशक लेखापरीक्षा (वायु सेना), देहरादून	11-03-2015
7.	हरिन्द्र सिंह	प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं, चंडीगढ़	23-03-2015

सचिन कपूर
उपनिदेशक लेखापरीक्षा (मुख्यालय)

सं. 14052015901/ए. प्रशा./130/गजट अधि./2015—निम्नलिखित वरिष्ठ लेखापरीक्षकों को उनके सामने दर्शाई तिथि से अगले आदेशों तक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम (सर्व श्री / श्रीमती)	कार्यालय जहां वर्तमान में कार्यरत है	पदोन्नति की तिथि
1.	नरिन्द्र कुमार	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली	10-12-2014
2.	बुद्धिमान कैथवास	निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं (आ.नि.), जबलपुर	11-12-2014
3.	राम शंकर	उपनिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, इलाहाबाद	26-12-2014
4.	नागेश राणा	निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, मेरठ कैंट	29-12-2014
5.	राजीव कुमार भटनागर	निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, मेरठ कैंट	29-12-2014

सचिन कपूर
उपनिदेशक लेखापरीक्षा (मुख्यालय)

सं. 14052015902/ए. प्रशा./130/गजट अधि./2014—निम्नलिखित व्यक्तिगत सहायकों को उनके सामने दर्शाई तिथि से अगले आदेशों तक निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम (सर्व श्री / श्रीमती)	कार्यालय जहां वर्तमान में कार्यरत है	पदोन्नति की तिथि
1.	पुष्पला रामकृष्णन	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली	19-06-2014
2.	कुमार कृष्णा सेनगुप्ता	महानिदेशक लेखा परीक्षा (आ.नि.), कोलकाता	19-06-2014

सचिन कपूर
उपनिदेशक लेखापरीक्षा (मुख्यालय)

सं. 14052015903/ए. प्रशा./130/गजट अधि./2015—निम्नलिखित कनिष्ठ हिंदी अनुवादक को उनके सामने दर्शाई तिथि से अगले आदेशों तक हिंदी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

नाम (सर्व श्री / श्रीमती)	कार्यालय जहां वर्तमान में कार्यरत है	पदोन्नति की तिथि
एस. धनराजन	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली	25.03.2013

सचिन कपूर
उपनिदेशक लेखापरीक्षा (मुख्यालय)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान
जयपुर, दिनांक 2015

सं. प्रशा.-II/गजट नोटिफिकेशन/आर-12063/122/2014—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अधिवार्षिकी पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है:

श्री जगमाल सिंह
लेखापरीक्षा अधिकारी

30.04.2015 (अपरान्ह) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त

हस्ता./—अपठनीय
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)
ओड़िशा

भुवनेश्वर, दिनांक 16 अप्रैल 2015

सं. प्रशासन-1-भा.ले.वि-ग्रुप 'ख'/76/स्था.आ.सं.04—दिनांक-31.03.2015 के का.आ.ग.सं 1082 में दी गई पदोन्नति को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को दिनांक-01.04.2015 पूर्वाह्न से अर्थात् उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एवं उनके वरियता के बकाया पड़े मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वरिष्ठ लेखा अधिकारी(ग्रुप 'ख' राजपत्रित) पद पर वेतन बैंड (पी.बी-2) रु- 15600—39100/- ग्रेड वेतन रु. 5400/- पर महालेखाकार ने सहर्ष प्रदान करते हैं।

1. श्री बैष्णब बेहेरा
2. श्री बी.बी.एस.एस. महापात्र
3. श्री सत्यप्रिय महान्ती
4. श्री कार्तिक चन्द्र सेठी

यह पदोन्नति अस्थाई आधार पर की गई एवं उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय पर आधारित है।

दिनांक-31.03.2015 के का.आ.ग.सं 1082 में विहित शर्तें एवं अनुबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

ए. के. जोशी
उपमहालेखाकार(प्रशासन)

सं. प्रशासन-1-भा.ले.वि-ग्रुप 'ख'/78/स्था.आ.सं.05—दिनांक-31.03.2015 के का.आ.ग.सं 1083 में दी गई पदोन्नति को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप श्री अजय कुमार साहु-1, सहायक लेखा अधिकारी को दिनांक-01.04.2015 पूर्वाहन से अर्थात् उनके कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से एवं उनके वरियता के बकाया पड़े मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेखा अधिकारी(ग्रुप 'ख' राजपत्रित)पद पर वेतन बैंड (पी.बी-2) रु- 9300—34000/- ग्रेड वेतन रु. 5400/- पर महालेखाकार ने सहर्ष प्रदान करते हैं।

यह पदोन्नति अस्थाई आधार पर की गई एवं उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय पर आधारित है।

दिनांक-31.03.2015 के का.आ.ग.सं 1083 में विहित शर्तें एवं अनुबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

ए. के. जोशी

उपमहालेखाकार(प्रशासन)

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2015

सं. ए-23023/7/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री रणबीर सिंह को बुनकर सेवा केन्द्र, दिल्ली में दिनांक 11 मार्च, 2015 (पूर्वाहन) से अगले आदेशों तक के लिये 15600—39100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 7600/- रुपये के वेतनमान में निदेशक के पद पर पदोन्नत करते हैं।

राजेश कुमार साहू

अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

दिनांक 8 अप्रैल 2015

सं. ए-23023/5/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री वी. के. व्यास को 4 अप्रैल, 2015 (पूर्वाहन) से भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर में अगले आदेशों तक 15600—39100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5400/- रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ प्रवक्ता (वस्त्र प्रसंस्करण) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

राजेश कुमार साहू

अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

दिनांक 13 मई 2015

सं. ए-23023/2/2014-डीसीएचएल/स्था-II—राष्ट्रपति, श्री एस. के. सेन को 12 मई, 2015 (पूर्वाहन) से बुनकर सेवा केन्द्र, आइज़ोल में अगले आदेशों तक 15600—39100/- रुपये (पे बैंड-3) + ग्रेड पे 5400/- रुपये के वेतन मान में सहायक निदेशक ग्रेड-I (प्रसंस्करण) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

राजेश कुमार साहू

अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-85, दिनांक 7 मई 2015

सं. पीडी/4(4)/2014/भर्ती-III/2015/4821—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती मेरी वरगीस, निजी सचिव (गैर-सचिवलयीन) को दिनांक 09.03.2015 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रुपये 9,300—34,800/— के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रुपये 4,800/— में इस अनुसंधान केन्द्र में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मृत्युलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

मुंबई-400085, दिनांक 8 मई 2015

सं. पीडी/93/अधि./स्थापना/I & II/60427— निम्नलिखित सूची में जिन अधिकारियों के नाम कॉलम-2 में दिए गए हैं उन्होंने कॉलम-3 में इंगित पदों को कॉलम-4 में दी गई तारीखों से कॉलम-5 में दी गई घटना के फलस्वरूप त्याग दिया है :—

अधिकारी का नाम	त्याग किया गया पद का कार्यभार	पद का कार्यभार त्याग करने की तारीख	घटना
श्री एच. जी. साहू	सहायक लेखा अधिकारी	28.02.2015 अप.	अधिवर्षिता

आर. पी. राजू
नियंत्रक

सं. पीडी/93/अधि./स्थापना/I & II/60427—निम्नलिखित सूची में जिन अधिकारियों नाम कॉलम-2 में दिए गए हैं। उन्होंने कॉलम-3 में इंगित पदों को कॉलम-4 में दी गई तारीखों से कॉलम-5 में दी गई घटना के फलस्वरूप त्याग दिया है :—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	त्याग किया गया पद का कार्यभार	पद त्याग करने की तारीख	घटना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	डा कृष्ण रामदुरई	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	13.02.2015 (अप)	त्यागपत्र
2	श्री सुभाष नामदेव वानखेडे	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	28.02.2015 (अप)	अधिवर्षिता
3	श्री के.एन.माहुले	डीएस एवं अध्यक्ष	28.02.2015 (अप)	दूसरी सेवा विस्तार के बाद सेवानिवृत्त
4	श्री शांतलाल मुखर्जी	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	28.02.2015 (अप)	अधिवर्षिता
5	श्री पंकज कुमार प्रधान	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	28.02.2015 (अप)	अधिवर्षिता
6	श्री अरूप कुमार पाल	वैज्ञानिक अधिकारी/जी	28.02.2015 (अप)	अधिवर्षिता
7	श्री प्यारे किशन वत्तल	डीएस एवं निदेशक एनआरजी	28.02.2015 (अप)	अधिवर्षिता

आर. पी. राजू
नियंत्रक

मुंबई-400085, दिनांक 6 मई 2015

सं. पीडी/7(12)/2015/भर्ती-IV/ एसओएच/4764—राष्ट्रपति भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड 'जी' पे बैंड पीबी-4 रुपये 37,400—67,000/— + ग्रेड पे रुपये 8,900/— को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'एच' के पद पर पे बैंड पीबी-4 रुपये 37,400—67,000/— ग्रेड पे रुपये 10,000/— के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में उनके नाम के आगे उल्लिखित कॉलम संख्या 3 में दर्शाये गए तिथि के पूर्वार्हण से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	दिनांक
1	डा दिनेश व्यंकटेश उडुपा	10/03/2015
2	डा शम्भुनाथ झा	10/03/2015
3	श्री गिरीश विद्याधर शेणई	10/03/2015
4	श्री तापश कुमार घोष	10/03/2015
5	श्री दिनेश कुमार नागोरी	10/03/2015
6	श्री विजय सिंह सिकरवार	17/03/2015
7	श्री जीजी जोसेफ	10/03/2015
8	श्री कुलकर्णी जितेंद्र जयंत	10/03/2015
9	श्री अन्टो कुरियन थरपिल	10/03/2015
10	श्री केतन दिलीप लागू	10/03/2015
11	श्री एम. पद्मनाभन	10/03/2015
12	डा(श्रीमती) अनिता विनय टोपकर	10/03/2015
13	श्री बोरकर सुहास प्रभाकर	10/03/2015
14	श्री यरबर्ल चलपति राव	10/03/2015
15	डा प्रसाद शेखर वारियर	10/03/2015
16	डा संजय कुमार झा	10/03/2015
17	डा आदर्श कुमार दुरेजा	10/03/2015
18	श्रीमती मंजिरी एम. पांडे	10/03/2015
19	श्री श्रीनिवास येदु	10/03/2015
20	श्री महेश सुधाकर देशपांडे	10/03/2015

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	दिनांक
21	डा(श्रीमती) स्नेहल उदय नाडकर्णी	10/03/2015
22	डा पि. सुप्रसन्ना	10/03/2015
23	डा ललित मोहन पंत	10/03/2015
24	श्रीमती अरुंधती किशोर गुर्जर	10/03/2015
25	श्री श्रीकुमार जी.	10/03/2015
26	डा ताराशंकर माहाता	10/03/2015
27	श्री के.सी. कृष्णमूर्ति	10/03/2015
28	श्री सौरव भट्टाचार्य	10/03/2015
29	श्री मनोज कुमार सक्सेना	10/03/2015
30	डा हलधर नाईक	10/03/2015
31	श्री याकुब अली एम.	10/03/2015
32	श्री निरूपम दास	10/03/2015
33	श्री सुनील कुमार सिन्हा	10/03/2015
34	श्री सुधीर मिश्रा	10/03/2015
35	श्री बेंगलूर सत्यनारायणा अरुण कुमार	10/03/2015
36	श्री वेदुल राम प्रसाद	10/03/2015
37	डा दिलीप कुमार कौल	10/03/2015
38	डा हरि प्रसाद उपाध्याय	10/03/2015
39	श्री पी के दत्ता	10/03/2015
40	श्री शिबू थॉमस	10/03/2015
41	श्री नरेंद्र शंकर जोशी	16/03/2015
42	श्री मुरली बालकृष्णन	10/03/2015
43	श्री विष्णु वर्मा	10/03/2015
44	श्री राजवीर सिंह	10/03/2015
45	श्री अनंता जोशी	10/03/2015
46	श्री मंजुनाथ बैचापुर सिद्दय्या	10/03/2015

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	दिनांक
47	श्री मिलिन्द प्रभाकर कुलकर्णी	10/03/2015
48	श्री अल्लम सेट्टी विजया कुमार	16/03/2015
49	श्री विवेक महादेव	10/03/2015
50	श्री भास्कर घनश्याम नाईक	10/03/2015
51	डा अमिताभ दास	10/03/2015
52	डा चन्द्र नाथ पात्रा	10/03/2015
53	डा मुकुंदन रंगस्वामी	10/03/2015
54	श्री आर. बी. इंगोले	10/03/2015
55	श्री वोगीराला नटराजु	10/03/2015
56	श्री मनहरणलाल साहू	10/03/2015
57	श्रीमती सविता जैन	10/03/2015

एम .व्ही .श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 13 मई 2015

सं. 26/1/2015-सीसीएस/6260—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाईयों में कार्यरत उप लेखा नियंत्रक (पीबी-3 रु.15600—39100/- + ग्रेड वेतन रु. 6600/-) ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दी गई तारीख से आगामी आदेश होने तक प्रभावी रूप में संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) (पीबी-3 रु.15600—39100/- + ग्रेड वेतन रु.7600/-) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

क्र.सं.	नाम	इकाई	संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के रूप में पदोन्नति की तारीख
1.	श्री एम. भास्करा प्रसाद	आरआरकैट, इंदौर	25.02.2015
2.	श्री श्रवण महादु गायकवाड	एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर	20.03.2015

के. पी. एस. पिल्लै
अवर सचिव

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 7 मई 2015

सं. पखनि-16/3/2013-भर्ती/992—निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग श्रीमति कविता एस. चोपाडे, सहायक (पीबी-2: ₹ 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन ₹ 4600/-), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई, को

आस्थाई हैसियत में दिनांक 31.03.2015, (पूर्वाहन) से अगले आदेशों तक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, नागपुर में स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी (पीबी-2: ₹ 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन ₹ 4800/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. एस. लक्ष्मण राव
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 21 अप्रैल 2015

सं. वी.ई.सी.सी./ पदोन्नति/2015/ 1133—राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र में वेतन बैंड 4 रु. 37,400—67,000/- तथा ग्रेड वेतन रु.10,000/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (एच) के पद पर मार्च 10, 2015 से अगले आदेश निकलने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं :

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन
1.	डॉ. आशीष कुमार धारा	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	पी.बी.-4 रु. 37,400—67,000/- + जी.पी. रु 8,900/-
2.	डॉ. तापस सामन्ता	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	पी.बी.-4 रु. 37,400—67,000/- + जी.पी. रु 8,900/-
3.	डॉ. चन्दना भट्टाचार्या	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	पी.बी.-4 रु. 37,400—67,000/- + जी.पी. रु 8,900/-
4.	डॉ. वैशाली नायक	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	पी.बी.-4 रु. 37,400—67,000/- + जी.पी. रु 8,900/-

ए. बनर्जी
प्रशासनिक अधिकारी-III

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार)

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
नई दिल्ली-110019, दिनांक 15 मई 2015

सं. आरओसी (दिल्ली)/दिस. 14, जन., फर., मार्च 15/रूल 37(3)/पब्लि./1936—एलएलपी नियम 2009 के नियम 37 की उपनियम (3) के अनुसरण में ऐतदद्वारा यह सूचना दी जाती है की इस तारीख से तीस दिन के अवसान पर निम्नलिखित एलएलपी के नाम इनके प्रतिकूल काल दर्शित न किये गए तो रजिस्टर से काट दी जायगी और निम्न एलएलपी विघटित कर दी जायगी।

क्रमांक संख्या	LLPIN	एल एल पी नाम
1.	AAA-3851	एनी नोव मोबिलिटी सोल्यूशन्स एल एल पी
2.	AAB-2289	लेट्टा लक्जरी एल एल पी
3.	AAA-2125	फ्लैटवर्ल्ड स्टडी ट्रिप्स एल एल पी
4.	AAB-6872	आरबीपी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सिस्टम्स एल एल पी

तिएनला
सहायक कम्पनी पंजीयक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार एवं शासकीय समापक

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले और निम्नलिखित 48 कम्पनियों के संबंध में ।

जयपुर-302001, दिनांक 12 मई 2015

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/5/67—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों के नाम, कम्पनियों के रजिस्ट्रार से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित कर दी गई हैं ।

क्र.सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
01	015851	एमसीजी इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
02	035294	आर्टेशियन स्टॉक ब्रोकिंग प्राईवेट लिमिटेड
03	014867	डॉ. विजय गुप्ताज मेडीकेयर प्राईवेट लिमिटेड
04	030530	भीलवाडा मेधा टेक्सटाईल्स पार्क प्राईवेट लिमिटेड
05	039889	सूर्या रेडीमिक्स प्राईवेट लिमिटेड
06	024714	कासिनी टेक-सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
07	036830	ब्लेज डिजाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
08	032787	श्री विनायक मेडीप्रुफ प्राईवेट लिमिटेड
09	033599	हर्षित स्टार मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
10	019347	लोड्स एजुकेयर प्राईवेट लिमिटेड
11	004578	अल्फा हाइड्रोमैक प्राईवेट लिमिटेड
12	036275	प्रोफेशनल इस्पोर्ट्सगमर्स प्राईवेट लिमिटेड
13	041663	जेट किंग्स डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
14	026832	किताब.कॉम (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
15	043369	हिन्दूस्तान ट्रान्स-लोजिस्टिक प्राईवेट लिमिटेड
16	025896	भास्कर कॉलोनाईजर प्राईवेट लिमिटेड
17	026954	तेजस्वी एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
18	038691	श्री सत्गुरु ड्रीम बिल्ड प्राईवेट लिमिटेड
19	031311	समाधान एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड
20	032428	न्यू ए.सी. एल्यूमिनियम प्राईवेट लिमिटेड
21	019003	हवामहल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
22	028245	श्री राम चरण इन्वेस्टमेन्ट कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
23	022731	मूनसन मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
24	034228	प्रोमटिक लाईफ साइन्सेज प्राईवेट लिमिटेड
25	020192	खोखर डवलपर्स एण्ड कॉलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड
26	035928	अर्ना प्रोफेशनल एजुकेशन एण्ड लर्निंग सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
27	037490	पट्टोन आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
28	042200	स्प्रेन्जा (इण्डिया) ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
29	022187	ओपन आई ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
30	032778	वेक अप मेनपावर कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
31	032327	आदिनाथ जाडू प्राईवेट लिमिटेड
32	041968	शुभ शक्ति सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
33	028502	समृद्धि ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड
34	018024	अक्षत बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
35	039327	वैल्थकाउन्टर कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
36	022166	प्रोलिफिक बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
37	039622	बजरंग मोहन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
38	032486	ग्लेक्सी स्टार ट्रेडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
39	014749	वर्सटाईल्स ट्रेडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
40	027504	ध्रुवी किरण मेन्जमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
41	012908	चैतन्य रस्टोरेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
42	041849	श्री राधारमन कॉरपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड
43	018047	लक्ष्य शोपिंग प्लाजा प्राईवेट लिमिटेड
44	040820	डेजर्ट रोज होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
45	025668	क्राउनविजन रियलमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
46	038690	मा पदमावती इन्फ्राबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड
47	038716	पदमावती वेल्थकन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
48	002040	राज इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाईन्स क. प्राईवेट लिमिटेड

इमरान ए. सिद्दीकी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
एवं सहायक शासकीय समापक
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956, और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर—208002, दिनांक 2015

सं. 560(5)/—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई हैं :—

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
1	आकाश गंगा मोटल्स एण्ड रिसार्ट्स लिमिटेड	U55101UP2008PLC036465	C44924900
2	आकाश गंगा बिल्डटेक लिमिटेड	U45201UP2008PLC036470	C44925626

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
3	आकाश गंगा इण्टरटैमेंट लिमिटेड	U92490UP2008PLC036469	C44926566
4	फ्लोरिड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	U85110UP1995PTC018187	C45430881
5	दिव्या एपीआर मेडीसेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U52310UP2008PTC036262	C45713708
6	व्हाइट स्टार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC054460	C46727640
7	एसएनए कान्सट्रक्शन एण्ड प्रापर्टीस प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC049660	C47316369
8	आरिनेस्ट सेल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2014PTC061904	C47334446
9	लखनउ रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC037185	C47404199
10	वाराणसी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2009PTC037184	C47411277
11	अरुन एण्ड रजत ट्रेडमार्ट प्राइवेट लिमिटेड	U51101UP2010PTC040791	C47608450
12	एसकेएस इन्फाडिजिटल प्राइवेट लिमिटेड	U74999UP2008PTC035453	C47644810
13	यूआर कैरियर सेल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U80904UP2012PTC049027	C47757950
14	आहान बिजनेस वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	U52100UP2009PTC036821	C47762679
15	फोकस इन्फोमीडिया सेल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2010PTC040797	C47921994
16	कृषीनिधि हीबर्ड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	U01403UP2013PTC057547	C47926860
17	ग्रीनलीफ इन्फाबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	U70100UP2014PTC062965	C47909494
18	बी एन एन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45200UP2006PTC032583	C47948351
19	आर जी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51109UP1984PTC006809	C47952239
20	श्री किशन शर्मा ट्रेवल्स एण्ड फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U65921UP1991PTC012858	C47969118
21	साल्व्स एण्ड स्पिरिट्स इंश्योरेंस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U66010UP2005PTC031086	C47977046
22	फ्रैक्टम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC045744	C48004063
23	वेलडन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2007PTC033269	C48024046
24	वेलडन इन्फ्रास्ट्रक्चर लखनउ प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2005PTC031176	C48024673
25	रेडिक्स नैनो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	U24233UP2013PTC059888	C48057723
26	उमापति एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड	U01403UP2012PTC052983	C48100473
27	नीलकंठ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड	U01403UP2012PTC050464	C48100523
28	रजतलक्ष्मी इन्फाडिजिटल प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC055147	C48166086
29	त्रिपाठी इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	U72200UP2000PTC025066	C48196455
30	नवरात्र बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP1988PTC010304	C48201677
31	ग्लोबल फ्रैंड्स फ्लोटस ग्लास प्राइवेट लिमिटेड	U26990UP2014PTC063992	C48202576
32	बर्टन रबर्स प्राइवेट लिमिटेड	U25199UP1982PTC005825	C48226690
33	अभयलोक आनलाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC043466	C48274773
34	लेजेण्ड ग्रीन पावर्स प्राइवेट लिमिटेड	U11115UP1974PTC004024	C48351837
35	क्लिफ मोबाइल्स लिमिटेड	U72400UP2008PLC034458	C48354005
36	नम्या ह्यूमन रिसोर्सिस एण्ड सिक्यूरिटी सेल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC040618	C48376230
37	मैटोक्स सिक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड	U74992UP2010PTC041807	C48384382
38	एमरोनेक्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC048397	C48385017
39	औराफोन हेल्थ इन्फार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC051960	C48388953
40	सरवियो स्टेफिंग सेल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC051305	C48446421
41	पिएचके इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC059313	C48458475

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
42	एसवी आरनामेंट्स एण्ड फिनसेक कंसल्टेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U51101UP2011PTC046453	C48426985
43	बेटा फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड	U19201UP2006PTC031342	C48494207
44	नावेल इरा इंटीरियो एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2008PTC035751	C48513956
45	पिनैकी इंफोटेक एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2010PTC042704	C48515191
46	प्रोलक इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC053824	C48520183
47	गुनगुन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC058913	C48530885
48	एक्सपर्ट कनेक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC058865	C48552459
49	हीवीमाइण्ड आउटसोर्स सेल्यूशनस प्राइवेट लिमिटेड	U74991UP2007PLC033217	C48567887
50	हैग डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC046229	C48576375
51	मानसी इश्योरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U66000UP2007PTC033980	C48642193
52	सवर्ण लाइफ स्पेस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2013PTC055651	C48692727
53	फेरोंप्राइम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC054909	C48704506
54	क्लीन साफटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2012PTC052276	C48720783
55	सान्वी ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC043968	C48746549
56	ब्राइडिया कंसल्टेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC043708	C48844948
57	युवी इण्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	U51220UP2006PTC031992	C48895304
58	मैक्समिन हालीडेस प्राइवेट लिमिटेड	U63090UP2013PTC056813	C48928287
59	ग्लोबलहेलो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2013PTC059581	C48945075
60	सिघान्त इन्फ्राहोम प्राइवेट लिमिटेड	U70100UP2014PTC062588	C48958359
61	इफाजोन कलेक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U18204UP2011PTC047330	C48956437
62	एसओबी रियल स्टेट इण्डिया लिमिटेड	U70100UP2013PLC061233	C48971642
63	डीआर इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2011PTC044079	C48976989
64	मेटकाम कमोडिटीस प्राइवेट लिमिटेड	U27310UP2005PTC030210	C49013691
65	एकवाफलो इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U93000UP2014PTC062145	C49051501
66	कैजन इनर्जी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2013PTC056111	C49063803
67	इनेवैजन ई सेल्यूशनस प्राइवेट लिमिटेड	U93030UP2010PTC039938	C49073364
68	भदोही पेट्रोलियम डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड	U50200UP2014PTC063605	C49135783
69	कैरियर कंसल्टेन्सी सर्विसेस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U74210UP2000PTC025402	C49144553
70	हयूमेन केयर मेडिकोस प्राइवेट लिमिटेड	U24100UP2011PTC044561	C49147010
71	प्रकाश डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51109UP1988PTC010059	C49158405
72	कमल बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड	U24231UP1996PTC019294	C49185887
73	गोल्डेन टी एण्ड फूड प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड	U15122UP2009PTC037566	C49185911
74	पीकेजी बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2013PTC058523	C49301880
75	अर्वाचीन कम्प्यूटर एण्ड एजुकेशन सेण्टर प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC044192	C49360944
76	एसएसवीजी रियलस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2012PTC053385	C49377468
77	सुदिक्षा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2011PTC046049	C49511868
78	गेम्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2008PTC036184	C49529001
79	अचीवर्स एजुकेट प्राइवेट लिमिटेड	U80904UP2012PTC048229	C49656960
80	टेक्लीग कंसल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2013PTC055214	C49844699

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
81	एग्रीया हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	U24233UP2012PTC050586	C49993611
82	वेंकटेश्वर एग्रो इंडस्ट्रीज एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड	U15133UP2000PTC025526	C50007285
83	सेफप्रोग्रेस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	U85191UP2013PTC058389	C50034503
84	एसपिज सेल्युलॉस प्राइवेट लिमिटेड	U72900UP2003PTC027777	C50202852
85	रिजवी आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड	U70109UP2011PTC044579	C50391176
86	ग्लोबल क्रियेशन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	U70102UP2011PTC046809	C50431733
87	आबराड इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2014PTC061748	C50477942
88	पदम पालीपैक प्राइवेट लिमिटेड	U25209UP1986PTC008362	C50501378
89	कृष्णा स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड	U17111UP1988PTC009951	C50554278
90	शिवा फ्रेश फूटस प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC048819	C50583376
91	बेसलाइन कान्स्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2012PTC052802	C50718287
92	गाजीपुर रोलिंग मिल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	U28113UP2007PTC032772	C50753250
93	पोलेक्स प्रोसेस आटोमेशन एण्ड कन्ट्रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74992UP2010PTC041746	C50818616
94	ओम पालीक्लीनक्स प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2010PTC041127	C50839612
95	मैक लियोगंज टी हाउस प्राइवेट लिमिटेड	U15431UP2009PTC038911	C50847193
96	आध्या इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2011PTC047644	C50869957
97	जमालुददीन खान इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	U29191UP2000PTC025077	C51058493
98	राजदीप कान्स्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45201UP2009PTC037576	C51060093
99	एलआर इंफाटेल प्राइवेट लिमिटेड	U74120UP2012PTC049502	C51073864

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम 1956, और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

ग्वालियर-474009, दिनांक 15 मई 2015

सं. आरओसी-जीसी/U.S. 560(5)/2015/508—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज की तारीख से कम्पनी रजिस्टर से काट दिये गये हैं और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

S. No.	CIN	COMPANY NAMES
1	U36100MP2011PTC026529	कृष्णा बुड एन ग्लास प्राइवेट लिमिटेड
2	U72200MP2008PTC020483	डुगर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
3	U85110MP2010PTC024398	किन्डले मेडिकल एन्ड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
4	U15499MP2011PTC026290	छिन्दवाडा फुड पार्क प्राइवेट लिमिटेड
5	U45200MP2007PTC019717	मार्स कन्सट्रक्शन एन्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
6	U11100MP2014PTC032260	सप्रूसे एमब्रोसिया फर्टिलाइजर्स इन्टरप्रायजेज प्राइवेट लिमिटेड
7	U11100MP2014PTC032302	टेरेने एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
8	U45400MP2014PTC032301	टेरेने इन्फार्कॉम प्राइवेट लिमिटेड
9	U80904MP2012PTC028513	पूजा साईस एन्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
10	U72200MP2010PTC024558	जीनेट प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	CIN	COMPANY NAMES
11	U28990MP2006PTC018580	इन्डीकाना आर्ट एन मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
12	U72200MP2012PTC029036	एनडिओस साफ्टवेयर एन्ड एप्लीकेशन प्राइवेट लिमिटेड
13	U01407MP2013PTC031410	दर्श पोलिग्रो प्राइवेट लिमिटेड
14	U72200MP2010PTC024164	मेडीविजन साफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
15	U63040MP2009PTC022556	सम्पर्क ट्रेवल सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U52590MP2007PTC019784	दलसुखलाल मगनलाल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
17	U52335MP2008PTC020320	साई अभिकरण प्राइवेट लिमिटेड
18	U52599MP2011PTC027329	स्वागतम मल्टी मार्केटिंग एन्ड रीटेल प्राइवेट लिमिटेड
19	U72200MP2011PTC025855	मेनसेनट्रिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
20	U70100MP2010PTC023611	परपिल होम्स प्राइवेट लिमिटेड
21	U27100MP2011PTC025509	अष्टविनायक फ़ैरम एन्ड एलांयज प्राइवेट लिमिटेड
22	U45200MP2009PTC021882	अनवाडी कश एन्ड कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
23	U01211MP2003PTC015573	चम्बल डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
24	U21098MP2013PTC029839	छाजेड पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
25	U72200MP2006PTC018843	इन्फोएक्युटी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
26	U34300MP2011PTC025469	अम्बिका ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
27	U25190MP2010PTC023107	छत्रछाया एयर स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
28	U74900MP2009PTC022735	श्री सन्तश्री फ़ैशन इरा प्राइवेट लिमिटेड
29	U74140MP2010PTC023306	जीवन सरल कन्सलटेन्सी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
30	U40108MP2014PTC032259	टेरेने ईको फयूल्स प्राइवेट लिमिटेड
31	U45200MP2008PTC020785	वंशिका कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
32	U73100MP2005PTC017535	स्पेसऐज एडवान्स टेक्नालॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
33	U72200MP2011PTC025428	सैप —एक्स इन्फोरमेशन टेक्नालॉजी प्राइवेट लिमिटेड
34	U01403MP2007PTC019705	पोईसे एग्रो प्राइवेट लिमिटेड
35	U34300MP2011PTC026499	कच ऑटो प्राइवेट लिमिटेड
36	U65900MP2012PTC028817	केपीट्रेन्ड फायनेन्सियल कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
37	U72200MP2009PTC021510	स्टीम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
38	U02212MP1988PTC004692	संस्कार प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड
39	U74910MP2013PTC031200	रोन सिक्युरिटी एजेन्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
40	U52322MP2010PTC023347	निर्मल फयुचर मार्केटिंग कोनसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड
41	U45201MP2008PTC020414	पीवीकेजी कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
42	U45201MP2010PTC023637	ब्रिकोन इन्फ्राकोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
43	U27209MP2010PTC024600	एरिस्टो मेटालिकोस प्राइवेट लिमिटेड
44	U01122MP2008PTC020260	इपीटोमे फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड
45	U72200MP2012PTC028892	सोबती इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
46	U74300MP2013PTC030847	एमटीएसआई एडवरटायजिंग प्राइवेट लिमिटेड
47	U24230MP2010PTC024069	डियुस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
48	U45200MP2011PTC026575	धरती एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	CIN	COMPANY NAMES
49	U15400MP2008PTC020849	शिवालय एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
50	U33110MP2013PTC031694	अल्टीमेट मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
51	U45203MP2014PLC033087	डीबीएल परी बाजार इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
52	U45201MP2009PTC022620	बंगलामुख आवास विकास प्राइवेट लिमिटेड
53	U16003MP2003PTC015959	प्रोग्रेसिव फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
54	U31200MP2002PTC015443	मिलमान पॉवर टेक्नालॉजी प्राइवेट लिमिटेड
55	U52310MP2008PTC020381	बान ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
56	U72200MP2003PTC015986	मेट्रिक्स एलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
57	U74910MP2011PTC026678	इनविनसीबिल रिक्रूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
58	U24232MP2010PTC024990	जरगोन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
59	U80904MP2014PTC032926	एमेल्योर एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
60	U60230MP2012PTC029459	ट्रस्टेड लॉजिस्टिक्स एन्ड पैसेन्जर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
61	U74300MP1998PTC013174	स्पेक्ट्रम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
62	U26916MP2013PTC030712	दीपीका सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
63	U45200MP2012PTC027527	एनकेप बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
64	U92140MP2010PTC023701	एसएमएआरजे इवेन्ट इन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
65	U72200MP2012PTC029286	वनवे इन्फोसाफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
66	U67120MP2005PTC018156	नकोडा जेम्स एन्ड ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड
67	U74900MP2008PTC021343	बिग डायमंड मार्केटिंग एन्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
68	U70101MP2012PTC027891	नपियर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
69	U92120MP2011PTC025519	सीवीआर इन्टरटेनमेन्ट कॉन्टेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
70	U70100MP2009PTC022283	ओरिओन सोल्युसन्स प्राइवेट लिमिटेड
71	U67120MP2002PTC014997	शिवा इक्युटीज प्राइवेट लिमिटेड
72	U45200MP2010PLC024192	ग्रीन सहारा डेव कोन इंडिया लिमिटेड
73	U02423MP1993PTC007889	डी वी ईम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
74	U04520MP2005PTC018175	आधुनिक हाउसिंग डेवलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
75	U70101MP2010PTC023341	सिगमा रियलटर्स एन्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
76	U22130MP2011PTC026484	ज्ञानशिला मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
77	U70100MP2009PTC021590	ज्ञानशिला घीरज प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
78	U45200MP2008PTC021279	सपना संगीता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
79	U45201MP2008PTC021183	ज्ञानशिला दीपक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
80	U45203MP2008PTC020688	एम कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
81	U50103MP2005PTC017679	जेननेक्सट ऑटो प्राइवेट लिमिटेड
82	U24239MP2007PTC019263	हेल्प लाईफ प्राइवेट लिमिटेड
83	U80211MP2002PTC015015	पृथ्वी लर्निंग मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
84	U74140MP2013PTC030551	शुभ लीगल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
85	U70101MP2012PTC027440	श्री कल्यानिका पिनाकल इन्फॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
86	U70101MP2012PTC029122	संजय रीयल्टीज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	CIN	COMPANY NAMES
87	U45200MP2010PTC023643	मेहरीन रीयल्टी प्राइवेट लिमिटेड
88	U24211MP2007PTC020123	रिलायबल एग्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
89	U52393MP2012PTC029158	बाबा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
90	U24299MP2012PTC029722	रोहन फास्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड
91	U51505MP1995PTC009517	अन्धा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
92	U52590MP2009PTC022406	झीम लाईफ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
93	U51900MP2011PTC026530	सिमट्रेड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
94	U34102MP2003PTC016139	सेठ ट्रेक्टर्स एंड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
95	U45200MP2010PTC024967	गालव लेण्ड डवलपर्स एंड इन्फ्रस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
96	U70101MP2011PTC025354	ब्ल्यू कारपेट इन्फटेक प्राइवेट लिमिटेड
97	U32204MP2013PTC030267	जेआरबी टेलिकोम प्राइवेट लिमिटेड
98	U74140MP2012PTC027688	आरोही मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
99	U45200MP2008PTC020431	स्पेस मेकर एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
100	U74900MP2013PTC031123	नव बुल्क गैनेर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
101	U74140MP2011PTC025968	नोवल नोलेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
102	U14200MP2012PTC027801	मेटाबोल्ट रिसर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
103	U74140MP2010PTC023323	सेवक इंडिया कनसल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
104	U74210MP2007PTC019962	कासरेकर ब्रदर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
105	U04520MP2005PTC017223	समीक्षा कन्सल्टन्स एन्ड एडवोकेट प्राइवेट लिमिटेड
106	U15500MP2012PTC027832	पीथमपुर ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड
107	U74900MP2012PTC028763	बर्ड आईज फेसिलिटीज मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
108	U80302MP2013PTC030687	सोशल बिजनेस ट्रॉन्कारमर्स कनसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
109	U74140MP2002PTC014939	धवानी टेक्नोलॉजी एंड कनसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
110	U45200MP2013PTC030594	रेयुम डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
111	U70101MP2011PTC025994	धवलगीरी देवकोन प्राइवेट लिमिटेड
112	U70100MP2011PTC025665	एमराल्ड इन्फ्रा काम्म प्राइवेट लिमिटेड
113	U25202MP2013PTC030085	आदित्यसागर मूवर्स एंड पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड
114	U70101MP2011PTC025573	एचएसबी देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड
115	U70100MP2011PTC025420	मंगलम देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड
116	U70101MP2011PTC025999	नीलगीरी देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड
117	U70101MP2011PTC026002	सप्तगीरी इन्फबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
118	U15141MP1990PLC005744	शान्ती ओईल लिमिटेड
119	U45203MP1995PTC009848	दिशा कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
120	U52520MP2005PTC017587	मिलेनियम मशीन्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
121	U70101MP2010PTC023059	शुभ सम्पदा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
122	U45200MP2007PTC019859	श्री कृष्णा रोक ड्रिल्स प्राइवेट लिमिटेड
123	U32209MP1992PTC007412	गैलियम इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
124	U45200MP2012PTC029814	रेयम रीयल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	CIN	COMPANY NAMES
125	U70101MP2011PTC026000	हिमगिरी डेवकोन प्राइवेट लिमिटेड
126	U70102MP2014PTC032157	आशियाना ड्रीम टॉउनशिप प्राइवेट लिमिटेड
127	U67120MP1995PTC009181	आर.एस.डी केपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड
128	U28900MP2012PTC028609	स्कॉय टेक इन्सस्ट्रुमेंट्स एन्ड ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
129	U36100MP2010PTC023848	जी के फर्नीटेक प्राइवेट लिमिटेड
130	U70109MP2014PLC032071	डीएचएल इन्फ्राबिल्ड लिमिटेड

मुकेश कुमार
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956, और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पुणे, दिनांक 8 मई 2015

सं. आरओसीपी/एफ टी ई/560(5) 2015/4319—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनी विघटित हो गई हैं :—

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
1	U65992PN2012PTC143997	स्वप्नसिद्धी चिट फण्डस प्रायव्हेट लिमिटेड
2	U74900PN2012PTC144462	चकोटे पैकेजिंग सोलुशन प्रायव्हेट लिमिटेड
3	U72900PN2013PTC147042	अहिलने प्रायव्हेट लिमिटेड
4	U31200MH1976PTC019185	मॉनिटर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
5	U74140PN2008PTC132405	दीरव कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
6	U72900PN2010PTC136415	एवी-आउटसोर्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
7	U70101PN2012PTC143428	स्पार बिल्टकौन प्रायव्हेट लिमिटेड
8	U51909PN2011PTC141052	एम एन डार्डी ट्रेड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
9	U74110PN2008PTC131357	परफेक्ट लीगल सोलुशन्स (एल.पी.ओ.) प्रायव्हेट लिमिटेड
10	U29244PN2013PTC147414	मौरै इंजिनिअर्स फोर ऑटोमेशन एण्ड कंसल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
11	U19201PN2010PTC136024	गौरी एगो प्रिजर्वेन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
12	U45200PN2012PTC142746	जीडी वासतू निर्माण प्रायव्हेट लिमिटेड
13	U01110PN2011PTC139348	सह्यागिरी एगो रिएल्टी एण्ड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड
14	U72200PN1999PTC014187	एलीड कोस्मिक टेक्नोलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड
15	U74210MH1989PTC054535	रानाडे कंसल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
16	U45200PN2013PTC148170	गिया हाउसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
17	U72200PN2004PTC018768	दिविनेट एक्सेस टेक्नोलॉजीज़ सेल्स एण्ड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
18	U72900PN2009PTC134249	काड्रोइट टेक्नोलॉजीज़ प्रायव्हेट लिमिटेड
19	U01122PN2004PTC018854	फार्मर एगो फूड प्रोसेसिंग (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
20	U74999PN2010PTC137130	कोग्नीकेयर ट्रेनिंग सोलुशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
21	U72300PN2010PTC136558	ट्रीललासेक सिस्टम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
22	U24100PN2010PTC135257	निओज़ोय फार्मासुटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
23	U74999PN2013PTC147605	वेल्यु ग्लोबल रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड
24	U63040PN2008PTC132111	सुम्मिल हौलीडे प्लैनेस प्रायव्हेट लिमिटेड
25	U26109PN1980PTC019954	रेगलेन ओपथैलमिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
26	U85110PN2007PTC131004	नन्दगुडे पाटिल होस्पिटलीटीज़ प्रायव्हेट लिमिटेड
27	U74140PN2002PTC017302	दोयेन वैल्थ मैनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
28	U13200PN2010PTC137836	शीलोली मिनरल्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
29	U15549PN2009PTC134264	बाफना रायसिन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
30	U74110PN2008PTC132699	सिटीलीगल कारपोरेट सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
31	U45203PN2007PLC130707	भापकर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेव्लोपमेन्ट इंडिया लिमिटेड
32	U29100PN2011PTC141188	रौक ईजीटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
33	U29100PN2011PTC141187	कूनाल टेक्नोमेक प्रायव्हेट लिमिटेड
34	U32104PN2004PTC020007	जेनेक्स वायर ग्राफ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
35	U74200PN2007PTC130907	टेक्नोसील इंजिनिअरींग सोलुशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
36	U72200PN2013PTC147506	सुनन्दा सॉफ्टवेअर टेक्नोलॉजीज़ प्रायव्हेट लिमिटेड
37	U15422PN2012PTC143443	श्रीगुरुदेव शुगर इंडस्ट्रिज़ प्रायव्हेट लिमिटेड
38	U45200PN2007PLC130404	राम इंडिया लैन्डमार्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
39	U93000PN2012PTC143856	फॉर्च्युन बिजकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड
40	U29299PN2006PTC021780	इनोवेटिव अनालेटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
41	U72900PN2010PTC137065	पी इ टेक्नोलॉजीज़ प्रायव्हेट लिमिटेड
42	U01122PN2013PTC146881	प्रणव कृशी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
43	U74999PN2005PTC145367	एंगेज इंफोमिडिआ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
44	U24232PN2010PLC136389	मेडिप्रो फार्मा लिमिटेड लिमिटेड
45	U80222PN2004PTC018877	पूना बिज़नेस स्कू (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
46	U74300PN2008PTC132241	पूजा पब्लिसिटी प्लस प्रायव्हेट लिमिटेड
47	U92142PN2011PTC140879	व्हि2आर इव्हेन्टस प्रायव्हेट लिमिटेड
48	U74140MH1996PTC103765	अर्थ फायनानशियल अँड मैनेजमेंट सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
49	U01122PN2014PTC150736	फल्टन एगो प्रायव्हेट लिमिटेड
50	U74900PN2009PTC134974	ग्रीन टर्फस इस्टेट्स अँड फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
51	U74999PN2011PTC141125	स्वास्तिक फॅसिलिटी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
52	U00359PN2006PTC022252	कुगल इंजिनिअरींग प्रायव्हेट लिमिटेड
53	U24293PN2010PTC135443	राल्फ केम्सोल प्रायव्हेट लिमिटेड
54	U74900PN2009PTC134687	अविरमा एक्विज़म प्रायव्हेट लिमिटेड
55	U51909PN2010PTC135466	आर्कोबलेनो सेल्स अँड मार्केटींग प्रायव्हेट लिमिटेड
56	U31200PN2003PTC017561	पॉवर कॅप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
57	U72200PN2012PTC142028	सीमा सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
58	U55101PN2009PTC135064	सुवर्णा ड्रग बिच रिसोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
59	U72900PN2007PTC138568	हॅमिल्टन डिझाइन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
60	U01403PN2011PTC141252	पुश्कराज फूड प्रोडक्ट्स यव्हेट लिमिटेड
61	U74920PN2011PTC141350	स्टोनवेल सेक्युरिटी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
62	U45203PN2008PTC131640	भंडारी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
63	U55101PN2006PTC129287	कोरल हॉस्पिटैलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड
64	U74900PN2008PTC132858	माइन्ड स्पेस एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
65	U24118MH1987PTC043930	एस्बी इंडस्ट्रीयल कमबाइन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
66	U55101PN2011PTC139867	आयएसएमइ कैफेस प्रायव्हेट लिमिटेड
67	U45200PN2013PTC149375	के.एम इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड कंस्ट्रक्शन डेव्हलोपमेन्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
68	U72200PN2009PTC135102	सिमलेस वेब सोलुशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
69	U01111PN2001PTC016077	श्री साइलेंक्स फार्म सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
70	U20299PN2006PTC129104	एक्सकॅलिबर इनटीरिअर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
71	U34106PN2013PTC148427	वेसटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
72	U23203PN2011PTC140754	प्रणिक फ्युएल प्रायव्हेट लिमिटेड
73	U74900PN2013PTC147304	स्वयमसिध्दा सोशिओ-इकोनोमिक प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
74	U71220PN2009PTC134385	वरद विनायक एक्विपमेंट अँड प्रोपर्टी रेंटल प्रायव्हेट लिमिटेड
75	U00130PN2006PTC022332	मंत्रा माइनिंग (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
76	U45200PN2013PTC146885	नलिनोत्तम डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
77	U72200PN2002PTC017322	ब्रिसा सॉफ्टवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड
78	U01400PN2011PTC138889	यशोधन एगोप्लास्ट प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
79	U72200PN2014PTC151596	रोबस्ट वन टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
80	U51909PN2005PTC021439	डायमंड क्वीन ट्रेडिंग अँड कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
81	U29194PN2000PTC015657	कॉटमॅक गैसटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
82	U72200PN2005PTC021330	आयकार्ज सॉफ्टवेयर (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
83	U72900PN2010PTC136236	हाय टेक आय टि सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
84	U60200PN2007PTC131126	पालंदेकार्गो अँड लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
85	U29100PN2011PTC141367	जय तुळजा भवानी इलेक्ट्रो इक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
86	U29299PN2013PTC146403	फेम्टो सायन्टीफिक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
87	U72900PN2005PTC021420	डी-स्केअर कम्युनिकेशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
88	U72900PN2008PTC132401	लोहित सॉफ्टेक प्रायव्हेट लिमिटेड
89	U40104PN2009PTC134158	विरॅक्स एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड
90	U51909PN2011PTC138798	वरदायीनी इलेक्ट्रीक इंजिनियरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
91	U31909PN2011PTC139916	खुशि इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
92	U67190PN2009PTC133585	मोरे फायनास कंस्ट्रेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
93	U29248PN2010PTC136705	आरसीजी इंजिनियरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
94	U45200PN2009PTC134616	वेदिका हाऊसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
95	U72400PN2009PTC134276	ए बी एस टेक्नो आयटी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
96	U70101PN2010PTC137348	सायगनेट रियालिटी अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड
97	U31909PN1990PTC057790	स्ट्रोक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
98	U70200PN2010PTC136883	शिवनारायण रिअलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड
99	U72900PN2009PTC134788	माईड ब्लॉक्स मेडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
100	U45200PN2012PTC144790	ब्रिस्क इंप्रा प्रायव्हेट लिमिटेड
101	U63030PN2009PLC133481	बवदा नगेश्वर लॉजीस्टिक प्रायव्हेट लिमिटेड
102	U74140PN2005PTC021151	पेरेंन्सिअल इनोव्हेटीव्ह सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
103	U32109PN2005PTC020184	यूनीटेल ऑफीस ऑटोमेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
104	U74140PN2008PTC131966	जेडीएस फायनान्शिअल मैनेजमेंट कन्सल्टन्सी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
105	U72200PN2012PTC143105	रेहेबॉक प्रायव्हेट लिमिटेड
106	U15428PN2007PLC130884	सिद्धिविनायक अल्कोहोल लिमिटेड
107	U72900PN2006PTC021918	ईन्फोपोर्ट सोलुशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
108	U74140PN2011PTC139911	सूनाह कन्सल्टन्सी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
109	U74140PN2001PTC015721	सूवी कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
110	U70102PN2006PTC129063	वास्तुमीत्र रीयालेटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
111	U01400PN2011PTC141711	के आर एस अॅगो प्रायव्हेट लिमिटेड
112	U35110PN2008PTC131226	राजापूर शिपयार्ड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
113	U74900PN2010PTC135862	यूनि-टेक व्हॅल्यूअर्स अॅण्ड डीजायनर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
114	U74999PN2002PTC016678	अलाया कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
115	U65910PN1991PTC059645	हस्तीमल मऊंट इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
116	U65910PN1991PTC059644	उल्हास इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
117	U67110PN1991PTC059646	मऊंट इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
118	U74900PN2011PTC138987	अॅस्टूट इंडस्ट्रियल पार्क प्रायव्हेट लिमिटेड
119	U45200PN2010PTC137163	वाहा इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
120	U40300PN2010PTC137208	फुएर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड

शामराव दत्तात्रय पाटील
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 12th May 2015

No. F.20/2015/SCA(1)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote Shri H. K. Juneja and Shri Badr-ul-Islam, Deputy Registrars as Additional Registrar with effect from 08.05.2015 (A.N.).

M. K. HANJURA
Registrar (Admn.I)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 30th April 2015

No. DPPERS.I/2015/97/3/40/2007—Services of Shri Ratn Sanjay, IPS(BH:1998), DIG, CBI have been placed back at the disposal of Government of Bihar with effect from the afternoon of 14.4.2015 on repatriation, consequent upon completion of his approved tenure at centre.

Sd/-ILLEGIBLE
Deputy Director (Admn.)

The 7th May 2015

No. DPPERS.I/2015/0099/3/67/2012—The President is pleased to appoint Shri V. Chandrasekhar, IPS(GJ:2000) as Deputy Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 10.4.2015 for a period upto 9.9.2017 or till further orders, whichever event takes place earlier.

Sd/- ILLEGIBLE
Deputy Director (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi- 110003, the 7th May 2015

No. O.II-6039/2014-Pers-DA.4—Regret to notify that during anti Naxals operation conducted on 25/04/2015(FN) at Dhurghat, under Police station Keshkal, Distt Kondagaon, Chhatisgarh, Shri Jitender Singh Rathore, Dy Comdt (IRLA-6039) of 188 Bn, CRPF suddenly fell down and become unconscious. Later expired under treatment. Thus, he sacrificed his precious life on 25/04/2015(FN) in the discharge of active operational duty. Accordingly, his name stand deleted from the strength of the Force with effect from 25/04/2015(AN).

M.C. PANWAR
DIG(Pers) Dte

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 13th May 2015

No.E-16014/Cab.Sec/2002/Pers.II/ 633—Consequent upon repatriation from deputation, the following officer has reported at CISF HQrs., New Delhi and taken on the strength of CISF HQrs/Unit with effect from the date as shown against his name:—

Name of the Officer (S/Shri/Smt/Ms)	Rank	Name of the Department where officer was on deputation	The officer taken on the strength of CISF	Date of assumed the charge/Unit
S.SRINIVASA BABU	SR. COMDT.	CABINET SECRETARIAT, NEW DELHI	06.04.15(FN)	27.04.2015 (FN) Gp.HQrs., Hyderabad

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
DEFENCE SERVICES

New Delhi-110001, the 14th May 2015

No. 14052015900/A. Admn./130/G. Noti./2015—The under mentioned Assistant Audit Officers are promoted as Audit Officers until further orders from the date noted against each: —

Sl.No	Name (S/Shri)	Office in which serving at present	Date from which promoted as Audit Officer
1.	S. Narasimhamurthy	DDA (Navy), Mumbai	30.06.2014
2.	Lakhami Singh	DA, DS, Meerut	22.09.2014
3.	Satbir Singh	PDA (Navy), New Delhi	13.10.2014
4.	Ranvir Singh Pathania	DDA, DS, Jammu	01.01.2015
5.	Usha Nautiyal	DA (AF), Dehradun	11.03.2015
6.	Shri Prakash Mishra	DA (AF), Dehradun	11.03.2015
7.	Harinder Singh	PDA, DS, Chandigarh	23.03.2015

SACHIN KAPOOR
Dy. Director of Audit

No. 14052015901/A. Admn./130/G. Noti./2015—The under mentioned Sr. Auditors are promoted as Assistant Audit Officers until further orders from the date noted against each: —

Sl. No	Name (S/Shri/Smt.)	Office in which serving at present	Date from which promoted as Asstt. Audit Officer
1.	Narinder Kumar	DGA, DS, New Delhi	10-12-2014
2.	Budhiman Kaithwas	DA (OF), Jabalpur	11-12-2014
3.	Ram Shankar	DDA, DS, Allahabad	26-12-2014
4.	Nagesh Rana	DA, DS, Meerut Cantt	29-12-2014
5.	Rajeev Kumar Bhatnagar	DA, DS, Meerut Cantt	29-12-2014

SACHIN KAPOOR
Dy. Director of Audit

No. 14052015902/A. Admn./130/G. Noti./2014—The under mentioned Personal Assistants are promoted as Private Secretary until further orders from the date noted against each:—

Sl. No.	Name (S/Shri/Smt.)	Office in which serving at present	Date from which promoted as Private Secretary
1.	Pushkala Ramakrishnan	C&AG of India, New Delhi	19-06-2014
2.	Kumar Krishna Sengupta	DGA (OF), New Delhi	19-06-2014

SACHIN KAPOOR
Dy. Director of Audit

No. 14052015903/A. Admn./130/G. Noti./2015—The under mentioned Junior Hindi Translator is promoted as Hindi Officer until further orders from the date noted against him:—

Name (S/Shri/Smt.)	Office in which serving at present	Date from which promoted as Hindi Officer
S. Dhanrajan	DGA, DS, New Delhi	25.03.2013

SACHIN KAPOOR
Dy. Director of Audit

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT),
RAJASTHAN

Jaipur, the 2015

No.: Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/122 /2014—The following Group 'B' Gazetted Officer retired on superannuation from Government service from the date shown against his name:—

Shri Jagmal Singh
Audit Officer

Retired on superannuation wef. 30.04.2015 (AN)

Sd/-ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), ODISHA

Bhubaneswar-1, the 16th April 2015

No. Admn-I-IAD-Gr.(B)-75/E.O. No. 04—Consequent on their acceptance of offer of promotion issued vide this office OOC No. 1082 dated 31.03.2015, the Accountant General (A&E) Odisha has been pleased to allow the following Accounts Officers to officiate as Senior Accounts Officers [Gr. 'B'-Gazetted] in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from 01.04.2015 (FN) i.e. the date of taking over charge without prejudice to the claim of their seniors:—

1. Sri Baishnab Behera
2. Sri B. B. S. S Mohapatra
3. Sri Satyapriya Mohanty
4. Sri Kartik Chandra Sethi

The promotion is on temporary basis subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/ CAT, if any. Other terms and conditions of OOC. No. 1082 dated 31.03.2015 remain unchanged.

A. K. JOSHI
Deputy Accountant General (Admn.)

No. Admn-I-IAD-Gr.(B)-77/E.O. No. 05—Consequent on his acceptance of offer of promotion vide this office OOC No. 1083 dated 31.03.2015, the Accountant General has been pleased to allow Sri Ajaya Kumar Sahoo-I, Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer (Gr. 'B'-Gazetted) in the (PB-2) of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from the date of taking over charge i.e. on 01/04/2015(FN) without prejudice to the claim of his seniors.

The promotion is on temporary basis subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/ CAT, if any.

Other terms and conditions of OOC. No. 1083 dated 31.03.2015 shall remain unchanged.

A. K. JOSHI
Deputy Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF TEXTILES
(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS)

New Delhi, the 12th March 2015

No.A-23023/7/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri Ranbir Singh as Director in the pay-scale of Rs.15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs.7,600/- in the Weavers' Service Centre, Delhi w.e.f. 11.03.2015 (Forenoon) until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

The 8th April 2015

No.A-23023/5/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri V. K. Vyas as Senior Lecturer (Textile Processing) in the pay-scale of Rs.15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs.5,400/- in the Indian Institute of Handloom Technology, Jodhpur w.e.f. the forenoon of 4th April 2015 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

The 13th May 2015

No.A-23023/2/2014-DCHL/Estt.II.—The President is pleased to promote Shri S. K. Sen as Assistant Director Gr. I (Processing) in the pay-scale of Rs.15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs.5,400/- in the Weavers' Service Centre, Aizwal w.e.f. the forenoon of 12th May 2015 until further orders.

RAJESH KUMAR SAHU
Addl. Development Commissioner (Handlooms)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 7th May 2015

Ref:PD/4(4)/2014-R-III/2015/4821—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Mary Varghese, Private Secretary (Non-Secretariat) to the post of Senior Private Secretary on regular basis with effect from the forenoon of 09.03.2015 in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- in this Research Centre until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

Mumbai-85, the 8th May 2015

No. 93/Notification./I&II/ 60427—The Cadre Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :—

Sr. No.	Name of the officer	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Shri H.G. Sahu	Asstt. Account Officer	28/02/2015	Superannuation

R.P. RAJU
Controller

Ref: 93/Notification./I&II/60427—The Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :—

Sr. No.	Name of the officer	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dr. Krishna Ramadurai	SO/E	13/02/2015 (AN)	Resignation
2	Shri Subhash Namdeo Wankhede	SO/F	28/02/2015 (AN)	Superannuation
3	Shri K.N. Mahule	DS & Head	28/02/2015 (AN)	Retirement after 2 nd Extension of Service
4	Shri Santalal Mukherjee	SO/G	28/02/2015 (AN)	Superannuation
5	Shri Pankaj Kumar Pradhan	SO/G	28/02/2015 (AN)	Superannuation
6	Shri Arup Kumar Pal	SO/G	28/02/2015 (AN)	Superannuation
7	Shri Piaray Kishen Wattal	DS & Director, NRG	28/02/2015 (AN)	Superannuation

R.P. RAJU
Controller

Mumbai-85, the 6th May 2015

Ref: PD/7(12)/2015-R-IV/(SO/H)/4764—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade `G` Pay Band PB-4 Rs. 37,400-67,000/- + Grade Pay Rs. 8,900/- of the Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade `H` in the Pay Band PB-4 Rs. 37,400-67,000/- + Grade Pay Rs. 10,000/-, in the same Research Centre with effect from the forenoon of the dates indicated under column 3 against each, in an officiating capacity until further orders:—

Sl. No.	Name of the officer	Date of promotion
(1)	(2)	(3)
1	DR DINESH VENKATESH UDUPA	10/03/2015
2	DR SHAMBHU NATH JHA	10/03/2015
3	SHRI GIRISH VIDYADHAR SHENAI	10/03/2015
4	SHRI TAPAS KUMAR GHOSH	10/03/2015
5	SHRI DINESH KUMAR NAGORI	10/03/2015
6	SHRI VIJAY SINGH SIKARWAR	17/03/2015
7	SHRI GIGI JOSEPH	10/03/2015
8	SHRI KULKARNI JITENDRA JAYANT	10/03/2015
9	SHRI ANTO KURIAN THARAYIL	10/03/2015
10	SHRI KETAN DILEEP LAGOO	10/03/2015
11	SHRI M. PADMANABHAN	10/03/2015
12	DR(SMT) ANITA VINAY TOPKAR	10/03/2015

Sl. No.	Name of the officer	Date of promotion
(1)	(2)	(3)
13	SHRI BORKAR SUHAS PRABHAKAR	10/03/2015
14	SHRI YARABARLA CHALAPATHI RAO	10/03/2015
15	DR PRASAD SHEKHAR VARIYAR	10/03/2015
16	DR SANJAY KUMAR JHA	10/03/2015
17	DR ADARSH KUMAR DUREJA	10/03/2015
18	SMT MANJIRI M. PANDE	10/03/2015
19	SHRI SRINIVAS YEDDU	10/03/2015
20	SHRI MAHESH SUDHAKAR DESHPANDE	10/03/2015
21	DR(SMT) SNEHAL UDAY NADKARNI	10/03/2015
22	DR P. SUPRASANNA	10/03/2015
23	DR LALIT MOHAN PANT	10/03/2015
24	SMT ARUNDHATI KISHORE GURJAR	10/03/2015
25	SHRI SREEKUMAR G	10/03/2015
26	DR TARASANKAR MAHATA	10/03/2015
27	SHRI KRISHNAMURTHY K C	10/03/2015
28	SHRI SAURAV BHATTACHARYYA	10/03/2015
29	SHRI MANOJ KUMAR SAXENA	10/03/2015
30	DR HALADHARA NAIK	10/03/2015
31	SHRI YAKUB ALI M	10/03/2015
32	SHRI NIRUPAM DAS	10/03/2015
33	SHRI SUNIL KUMAR SINHA	10/03/2015
34	SHRI SUDHIR MISHRA	10/03/2015
35	SHRI BANGALORE SATYANARAYANA ARUN KUMAR	10/03/2015
36	SHRI VEDULA RAM PRASAD	10/03/2015
37	DR DILEEP KUMAR KOUL	10/03/2015
38	DR HARI PRASAD UPADHYAYA	10/03/2015
39	SHRI PRASANTA KUMAR DUTTA	10/03/2015
40	SHRI SHIBU THOMAS	10/03/2015
41	SHRI NARENDRA SHANKAR JOSHI	16/03/2015
42	SHRI MURALI BALAKRISHNAN	10/03/2015
43	SHRI VISHNU VERMA	10/03/2015
44	SHRI RAJVIR SINGH	10/03/2015
45	SHRI ANANTA JOSHI	10/03/2015

Sl. No.	Name of the officer	Date of promotion
(1)	(2)	(3)
46	SHRI MANJUNATH BYCHAPUR SIDDAIAH	10/03/2015
47	SHRI MILIND PRABHAKAR KULKARNI	10/03/2015
48	SHRI ALLAMSETTY VIJAYA KUMAR	16/03/2015
49	SHRI VIVEK MAHADEV	10/03/2015
50	SHRI BHASKAR GHANASHYAM NAIK	10/03/2015
51	DR AMITABH DAS	10/03/2015
52	DR CHANDRA NATH PATRA	10/03/2015
53	DR MUKUNDHAN RANGASWAMY	10/03/2015
54	SHRI R B INGOLE	10/03/2015
55	SHRI VOGIRALA NATARAJU	10/03/2015
56	SHRI MANHARAN LAL SAHU	10/03/2015
57	SMT SAVITA JAIN	10/03/2015

M. V. SREEDHARAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 13th May 2015

No. 26/1/2015-CCS/6260—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Deputy Controller of Accounts (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with GP Rs. 6,600/-) to the grade of Joint Controller (Finance & Accounts) (PB-3 Rs. 15,600-39,100/- with GP Rs. 7,600/-), in the units of the Department of Atomic Energy w.e.f. the dates given alongside until further orders:—

Sl.No	Name	Unit	Date of promotion to the grade of Joint Controller (Finance & Accounts)
1.	Shri M.Bhaskara Prasad	RRCAT, Indore	25.02.2015
2.	Shri Shrawan Mahadu Gaikwad	NRB, BARC, Tarapur	20.03.2015

K. P. S. PILLAI
Under Secretary

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 7th May 2015

No.AMD-16/3/2015-Rectt/992—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research Department of Atomic Energy, hereby appoints Smt. Kavita S. Chopade, Assistant (PB-2, Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,600/-), BARC, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer (PB-2, Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay Rs. 4,800/-), in Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Nagpur with effect from the forenoon of 31.03.2015 until further orders.

A. S. LAXMAN RAO
Chief Administrative & Accounts Officer

VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE

Kolkata-700 064, the 21st April 2015

No.VECC/Prom./2015/1133—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer (H) in the Pay Band 4 Rs. 37,400-67,000/- plus Grade Pay Rs. 10,000/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from March 10, 2015, until further orders :—

Sl. No.	Name	Present post	Pay Band plus Grade Pay
1.	Dr. Asish Kumar Dhara	Scientific Officer (G)	PB 4 Rs.37,400 -67,000 + GP Rs. 8,900/-
2.	Dr. Tapas Samanta	Scientific Officer (G)	PB 4 Rs.37,400 -67,000 + GP Rs. 8,900/-
3.	Dr. Chandana Bhattacharya	Scientific Officer (G)	PB 4 Rs.37,400 -67,000 + GP Rs. 8,900/-
4.	Dr. Vaishali Naik	Scientific Officer (G)	PB 4 Rs.37,400 -67,000 + GP Rs. 8,900/-

A. BANERJEE
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(O/O REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

New Delhi-110019, the 15th May 2015

No. ROC (Delhi) Dec' 14, Jan, Feb, Mar'15/Rule 37(3)/Publ./1936—Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009 that at the expiration of thirty days from the date hereof, the name of the following LLPs unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said LLP will be dissolved:—

Sl. No.	LLPIN	LLP Name
1.	AAA-3851	ENINOV MOBILITY SOLUTIONS LLP
2.	AAB-2289	LETTA LUXURY LLP
3.	AAA-2125	FLATWORLD STUDY TRIPS LLP
4.	AAB-6872	RBP DESIGN & DEVELOPMENT SYSTEMS LLP

TIAINLA
Asstt. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Jaipur-302001, the 12th May 2015

No. ROC /JPR/560(5)/67—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved:—

S. No.	Company No.	Company Name
01	015851	MCG ESTATE PRIVATE LIMITED
02	035294	ARTESIAN STOCK BROKING PRIVATE LIMITED
03	014867	DR.VIJAY GUPTA'S MEDICARE PRIVATE LIMITED
04	030530	BHILWARA MEGHA TEXTILE PARK PRIVATE LIMITED
05	039889	SURYA READYMIX PRIVATE LIMITED
06	024714	Cassini Tech-Solutions Private Limited
07	036830	BLAZE DESIGNS PRIVATE LIMITED
08	032787	SRI VINAYAK MEDIPROF PRIVATE LIMITED

09	033599	HARSHIT STAR MARKETING PRIVATE LIMITED
10	019347	LOTUS EDUCARE PRIVATE LIMITED
11	004578	ALFA HYDROMEC PRIVATE LIMITED
12	036275	PROFESSIONAL ESPORTS GAMERS PRIVATE LIMITED
13	041663	JET KINGS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
14	026832	KITAAB.COM (INDIA) PRIVATE LIMITED
15	043369	HINDUSTAN TRANS-LOGISTIC PRIVATE LIMITED
16	025896	BHASKAR COLONIZER PRIVATE LIMITED
17	026954	Tejasvi Exim Private Limited
18	038691	SHREE SATGURU DREAM BUILD PRIVATE LIMITED
19	031311	SAMADHAN AGROTECH PRIVATE LIMITED
20	032428	NEW A. C. ALUMINIUM PRIVATE LIMITED
21	019003	HAWAMAHAL BUILDERS PRIVATE LIMITED
22	028245	SHRI RAM CHARAN INVESTMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
23	022731	MOONSUN MINERALS PRIVATE LIMITED
24	034228	PROMETIC LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
25	020192	KHOKHAR DEVELOPERS AND COLONIZERS PRIVATE LIMITED
26	035928	Aarna Professional Education and Learning Solutions Private Limited
27	037490	PATRON ARTS & CRAFTS PRIVATE LIMITED
28	042200	Speranza (India) Trading Private Limited
29	022187	OPEN EYE TRADING PRIVATE LIMITED
30	032778	WAKE UP MANPOWER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
31	032327	ADINATH JADAU PRIVATE LIMITED
32	041968	SHUBH SAKSHI CEMENT PRIVATE LIMITED
33	028502	SAMRIDHI DRUGS PRIVATE LIMITED
34	018024	AKSHAT BUILDCON PRIVATE LIMITED
35	039327	WEALTHCOUNTER CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
36	022166	PROLIFIC BUILDERS AND DEVELOPER PRIVATE LIMITED
37	039622	BAJRANG MOHAN PROPERTIES PRIVATE LIMITED
38	032486	GALAXY STAR TRADEMART PRIVATE LIMITED
39	014749	VERSATILE TRADEWINGS PRIVATE LIMITED
40	027504	DHRUVI KIRAN MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
41	012908	CHAITANYA RESTAURANTS PVT. LTD
42	041849	SHRI RADHARAMAN CORPORATION PRIVATE LIMITED
43	018047	LAKSHYA SHOPPING PLAZA PRIVATE LIMITED
44	040820	DESERT ROSE HOTELS PRIVATE LIMITED
45	025668	CROWNVISION REALMART PRIVATE LIMITED
46	038690	MAA PADMAWATI INFRABUILD PRIVATE LIMITED
47	038716	PADMAWATI WEALTHCONSULTANT PRIVATE LIMITED
48	002040	RAJ INVESTMENT AND FINANCE CO PVT LTD

IMRAN A. SIDDIQUI
Asstt. Registrar of Companies
-cum- Asstt. Official Liquidator
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kanpur-208001, the 2015

No.LC/560(3)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved:—

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
1	AAKASH GANGA MOTELS & RESORTS LIMITED	U55101UP2008PLC036465	C44924900
2	AAKASH GANGA BUILDTECH LIMITED	U45201UP2008PLC036470	C44925626
3	AAKASH GANGA ENTERTAINMENT LIMITED	U92490UP2008PLC036469	C44926566
4	FLORID PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	U85110UP1995PTC018187	C45430881
5	DIVYA APR MEDISOLUTIONS PRIVATE LIMITED.	U52310UP2008PTC036262	C45713708
6	WHITE STAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC054460	C46727640
7	SNA CONSTRUCTIONS & PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC049660	C47316369
8	ORIZEST SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900UP2014PTC061904	C47334446
9	LUCKNOW RETAIL PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC037185	C47404199
10	VARANASI RETAIL PRIVATE LIMITED	U74900UP2009PTC037184	C47411277
11	ARUN AND RAJAT TRADEMART PRIVATE LIMITED	U51101UP2010PTC040791	C47608450
12	S.K.S. INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U74999UP2008PTC035453	C47644810
13	UR CAREER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U80904UP2012PTC049027	C47757950
14	AHAAN BUSINESS VENTURES PRIVATE LIMITED	U52100UP2009PTC036821	C47762679
15	FOCUS INFOMEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U93000UP2010PTC040797	C47921994
16	KRISHINIDHI HYBRID SEEDS PRIVATE LIMITED	U01403UP2013PTC057547	C47926860
17	GREEN LEAF INFRABUILD PRIVATE LIMITED	U70100UP2014PTC062965	C47909494
18	B.N.N BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45200UP2006PTC032583	C47948351
19	R G DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U51109UP1984PTC006809	C47952239
20	SHREE KRISHAN SHARMA TRAVELS AND FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED	U65921UP1991PTC012858	C47969118
21	SOULS ANDSPIRITS INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED	U66010UP2005PTC031086	C47977046

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
22	FACTUM INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72300UP2011PTC045744	C48004063
23	WELLDONE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2007PTC033269	C48024046
24	WELLDONE INFRASTRUCTURE(LUCKNOW) PRIVATE LIMITED	U45201UP2005PTC031176	C48024673
25	Redex Nano Labs Private Limited	U24233UP2013PTC059888	C48057723
26	UMAPATI AGRITECH PRIVATE LIMITED	U01403UP2012PTC052983	C48100473
27	NEELKANTH AGRITECH PRIVATE LIMITED	U01403UP2012PTC050464	C48100523
28	RAAJLAKSHMI INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC055147	C48166086
29	TRIPATHI INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED	U72200UP2000PTC025066	C48196455
30	NAVRATRA BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45201UP1988PTC010304	C48201677
31	GLOBAL FRIENDS FLOAT GLASS PRIVATE LIMITED	U26990UP2014PTC063992	C48202576
32	BURTON RUBBERS PRIVATE LIMITED	U25199UP1982PTC005825	C48226690
33	ABHIALOK online services private limited	U72300UP2011PTC043466	C48274773
34	LEGEND GREEN POWERS PRIVATE LIMITED	U11115UP1974PTC004024	C48351837
35	CLIFF MOBILES LIMITED	U72400UP2008PLC034458	C48354005
36	NAMYA HUMAN RESOURCE AND SECURITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC040618	C48376230
37	MATTOX SECURITY PRIVATE LIMITED	U74992UP2010PTC041807	C48384382
38	AMRONEX HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC048397	C48385017
39	Auraphon Health Informatics Private Limited	U74120UP2012PTC051960	C48388953
40	SERVIO STAFFING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC051305	C48446421
41	PHK Infotech Private Limited	U72300UP2013PTC059313	C48458475
42	SV ORNAMENTS & FINSECK CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U51101UP2011PTC046453	C48426985
43	BETA FOOT WEAR PRIVATE LIMITED	U19201UP2006PTC031342	C48494207
44	NOVEL ERA INTERIO AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900UP2008PTC035751	C48513956
45	PINAKEE INFOTECH AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U72300UP2010PTC042704	C48515191

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
46	PROLUCK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC053824	C48520183
47	Gungun Developers Private Limited	U70102UP2013PTC058913	C48530885
48	XPRT CONEXIONS PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC058865	C48552459
49	HIVEMIND OUTSOURCE SOLUTIONS LIMITED	U74991UP2007PLC033217	C48567887
50	HAIG DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC046229	C48576375
51	MANSI INSURANCE MARKETING PRIVATE LIMITED	U66000UP2007PTC033980	C48642193
52	SAWARNA LIFESPACE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2013PTC055651	C48692727
53	FerroPrime Trading Private Limited	U74120UP2013PTC054909	C48704506
54	CLEAN SoftTech PRIVATE LIMITED	U72300UP2012PTC052276	C48720783
55	SANVI JEWELS PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC043968	C48746549
56	BRIGHTIDEA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC043708	C48844948
57	YUVI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U51220UP2006PTC031992	C48895304
58	MAXMIN HOLIDAYS PRIVATE LIMITED	U63090UP2013PTC056813	C48928287
59	GLOBALHELLO INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED	U45400UP2013PTC059581	C48945075
60	SIDDHANT INFRAHOME PRIVATE LIMITED	U70100UP2014PTC062588	C48958359
61	IFAZONE COLLECTIONS PRIVATE LIMITED	U18204UP2011PTC047330	C48956437
62	SOB REAL ESTATE INDIA LIMITED	U70100UP2013PLC061233	C48971642
63	DEE AAR INFRABUILD PRIVATE LIMITED	U45400UP2011PTC044079	C48976989
64	METCOM COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U27310UP2005PTC030210	C49013691
65	AQUA FLOW INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U93000UP2014PTC062145	C49051501
66	KAIZEN ENERGY CONSULTING PRIVATE LIMITED	U74120UP2013PTC056111	C49063803
67	INNOVAZION eSOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U93030UP2010PTC039938	C49073364
68	BHADOHI PETROLEUM DEALERS PRIVATE LIMITED	U50200UP2014PTC063605	C49135783
69	CAREER CONSULTANCY SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74210UP2000PTC025402	C49144553
70	HUMAN CARE MEDICOS PRIVATE LIMITED	U24100UP2011PTC044561	C49147010

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
71	PRAKASH DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U51109UP1988PTC010059	C49158405
72	KAMAL BIO-CHEM PRIVATE LIMITED	U24231UP1996PTC019294	C49185887
73	GOLDEN TEA & FOOD PROCESSORS PRIVATE LIMITED	U15122UP2009PTC037566	C49185911
74	P K G BUILDCON PRIVATE LIMITED	U45400UP2013PTC058523	C49301880
75	ARVACHEEN COMPUTER AND EDUCATION CENTER PRIVATE LIMITED	U72300UP2011PTC044192	C49360944
76	S S V G REALESTATE PRIVATE LIMITED	U70102UP2012PTC053385	C49377468
77	SUDIKSHA BIOTECH PRIVATE LIMITED	U74900UP2011PTC046049	C49511868
78	GAMS INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72900UP2008PTC036184	C49529001
79	ACHIEVERS EDUTECH PRIVATE LIMITED	U80904UP2012PTC048229	C49656960
80	TECHLEEG CONSULTANCIES PRIVATE LIMITED	U72300UP2013PTC055214	C49844699
81	AGRIYA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U24233UP2012PTC050586	C49993611
82	VENKATESHWAR AGRO INDUSTRIES AND COLD STORAGE PRIVATE LIMITED	U15133UP2000PTC025526	C50007285
83	SAFEPROGRESS HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	U85191UP2013PTC058389	C50034503
84	SPITZ SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900UP2003PTC027777	C50202852
85	RIZVI ICE AND COLD STORAGE PRIVATE LIMITED	U70109UP2011PTC044579	C50391176
86	GLOBAL CREATIONS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102UP2011PTC046809	C50431733
87	OBRAD INFRATECH PRIVATE LIMITED	U45201UP2014PTC061748	C50477942
88	PADAM POLYPACK PRIVATE LIMITED	U25209UP1986PTC008362	C50501378
89	KRISHNA SPINNERS PRIVATE LIMITED	U17111UP1988PTC009951	C50554278
90	SHIVA FRESH FRUITS PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC048819	C50583376
91	BASELINE CONTRACTORS PRIVATE LIMITED	U45400UP2012PTC052802	C50718287
92	GHAZIPUR ROLLING MILLS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U28113UP2007PTC032772	C50753250
93	POLLEX PROCESS AUTOMATION & CONTROLS PRIVATE LIMITED	U74992UP2010PTC041746	C50818616
94	OM POLYCLINICS PRIVATE LIMITED	U74900UP2010PTC041127	C50839612

Sl No.	Company Name	CIN no.	SRN no.
95	Mc Leodganj Tea House Private Limited	U15431UP2009PTC038911	C50847193
96	AADHYA INTERIORS PRIVATE LIMITED	U74120UP2011PTC047644	C50869957
97	JAMALUDDIN KHAN ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U29191UP2000PTC025077	C51058493
98	RAJDEEP CONTRACTORS PRIVATE LIMITED	U45201UP2009PTC037576	C51060093
99	ALAR INFRATEL PRIVATE LIMITED	U74120UP2012PTC049502	C51073864

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Gwalior-474009, the 15th May 2015

No. ROC-GC/u/s.560(5)/2015/508—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of Companies have this day been Struck-off from the Register and the said companies are dissolved:—

S. No.	CIN	COMPANY NAMES
1	U36100MP2011PTC026529	KRSNA WOOD-N-GLASS PRIVATE LIMITED
2	U72200MP2008PTC020483	DUGAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3	U85110MP2010PTC024398	KINDLE MEDICAL AND RESEARCH PRIVATE LIMITED
4	U15499MP2011PTC026290	Chhindwara Food Park Private Limited
5	U45200MP2007PTC019717	Mars Construction & Developers Private Limited
6	U11100MP2014PTC032260	SPRUCE AMBROSIA FERTILIZING ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
7	U11100MP2014PTC032302	TERRENE AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
8	U45400MP2014PTC032301	TERRENE INFRACOM PRIVATE LIMITED
9	U80904MP2012PTC028513	POOJA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
10	U72200MP2010PTC024558	ZEENET PRIVATE LIMITED
11	U28990MP2006PTC018580	INDICANA ART-N-MART PRIVATE LIMITED
12	U72200MP2012PTC029036	Andios Software & Application Private Limited
13	U01407MP2013PTC031410	DARSH POLYAGRO PRIVATE LIMITED
14	U72200MP2010PTC024164	MEDIVISION SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
15	U63040MP2009PTC022556	SAMPARK TRAVEL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
16	U52590MP2007PTC019784	DALSUKHLAL MAGANLAL MARKETING PRIVATE LIMITED
17	U52335MP2008PTC020320	Sai Abhikaran Private Limited
18	U52599MP2011PTC027329	SWAGTAM MULTI MARKETING & RETAIL PRIVATE LIMITED

S. No.	CIN	COMPANY NAMES
19	U72200MP2011PTC025855	MENCENTRIC INFOTECH PRIVATE LIMITED
20	U70100MP2010PTC023611	PURPLE HOMES PRIVATE LIMITED
21	U27100MP2011PTC025509	Ashtvinayak Ferrum & Alloys Private Limited
22	U45200MP2009PTC021882	ANWADI CRUSH AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
23	U01211MP2003PTC015573	CHAMBAL DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
24	U21098MP2013PTC029839	CHHAJED PAPER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
25	U72200MP2006PTC018843	INFOACUITY SOFTWARE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
26	U34300MP2011PTC025469	AMBIKA AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED
27	U25190MP2010PTC023107	CHHATRACHHAYA AIR STRUCTURES PRIVATE LIMITED
28	U74900MP2009PTC022735	SHRI SANTSHRI FASHION ERA PRIVATE LIMITED
29	U74140MP2010PTC023306	JEEVAN SARAL CONSULTANCY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
30	U40108MP2014PTC032259	TERRENE ECO FUELS PRIVATE LIMITED
31	U45200MP2008PTC020785	Vanshika Constructions Private Limited
32	U73100MP2005PTC017535	SPACEAGE ADVANCED TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
33	U72200MP2011PTC025428	STEP - X INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
34	U01403MP2007PTC019705	POISE AGRO PRIVATE LIMITED
35	U34300MP2011PTC026499	KACH AUTO PRIVATE LIMITED
36	U65900MP2012PTC028817	CapiTrend Financial Consultancy Private Limited
37	U72200MP2009PTC021510	Stem Infotech Private Limited
38	U02212MP1988PTC004692	SANSKAR PRAKASHAN PVT LTD
39	U74910MP2013PTC031200	RON SECURITY AGENCY (INDIA) PRIVATE LIMITED
40	U52322MP2010PTC023347	NIRMAL FUTURE MARKETING CONCEPT PRIVATE LIMITED
41	U45201MP2008PTC020414	PVKG CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
42	U45201MP2010PTC023637	BRICKON INFRACON INDIA PRIVATE LIMITED
43	U27209MP2010PTC024600	Aristos Metallikos Private Limited
44	U01122MP2008PTC020260	EPITOME TECHNO FARMING PRIVATE LIMITED
45	U72200MP2012PTC028892	SOBTI INFOTECH PRIVATE LIMITED
46	U74300MP2013PTC030847	MTSI ADVERTISING PRIVATE LIMITED
47	U24230MP2010PTC024069	DEUS PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
48	U45200MP2011PTC026575	DHARTI ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
49	U15400MP2008PTC020849	SHIVALAY AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
50	U33110MP2013PTC031694	ULTIMATE MEDICARE PRIVATE LIMITED
51	U45203MP2014PLC033087	DBL PARI BAZAAR INFRA PROJECT LIMITED

S. No.	CIN	COMPANY NAMES
52	U45201MP2009PTC022620	BAGALAMUKH AWAS VIKAS PRIVATE LIMITED
53	U16003MP2003PTC015959	PROGRESSIVE FILTERS PRIVATE LIMITED
54	U31200MP2002PTC015443	MILMAN POWER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
55	U52310MP2008PTC020381	BAN OVERSEAS PRIVATE LIMITED
56	U72200MP2003PTC015986	MATRIX ALLIANCE PRIVATE LIMITED
57	U74910MP2011PTC026678	INVINCIBLE RECRUITERS PRIVATE LIMITED
58	U24232MP2010PTC024990	JARGON PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
59	U80904MP2014PTC032926	AMELYORE EDUCATION SERVICES PRIVATE LIMITED
60	U60230MP2012PTC029459	TRUSTED LOGISTICS AND PASSENGER SERVICES PRIVATE LIMITED
61	U74300MP1998PTC013174	SPECTRUM MEDIA PRIVATE LIMITED
62	U26916MP2013PTC030712	DEEPIKA CERAMICS PRIVATE LIMITED
63	U45200MP2012PTC027527	ANSCAPE BUILDCON PRIVATE LIMITED
64	U92140MP2010PTC023701	SMARJ EVENT ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
65	U72200MP2012PTC029286	ONEWAY INFOSOFTECH PRIVATE LIMITED
66	U67120MP2005PTC018156	NAKODA GEMS AND JEWELS PRIVATE LIMITED
67	U74900MP2008PTC021343	BIG DIAMOND MARKETING & SERVICES PRIVATE LIMITED
68	U70101MP2012PTC027891	NAPER INFRATECH PRIVATE LIMITED
69	U92120MP2011PTC025519	CVR Entertainment Content Distributors Private Limited
70	U70100MP2009PTC022283	ORION SOLUTION PRIVATE LIMITED
71	U67120MP2002PTC014997	SHIVA EQUITIES PRIVATE LIMITED
72	U45200MP2010PLC024192	GREEN SAHARA DEV-CON (INDIA) LIMITED
73	U02423MP1993PTC007889	DEE VEE IMPEX PVT LTD
74	U04520MP2005PTC018175	ADHUNIK HOUSING DEVELOPMENT PVT.LTD.
75	U70101MP2010PTC023341	SIGMA REALTORS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
76	U22130MP2011PTC026484	GYANSHEELA MEDIA PRIVATE LIMITED
77	U70100MP2009PTC021590	GYANSHEELA DHIRAJ PROJECT PRIVATE LIMITED
78	U45200MP2008PTC021279	SAPNA SANGEETA PROJECTS PRIVATE LIMITED
79	U45201MP2008PTC021183	GYANSHEELA DEEPAK PROJECTS PRIVATE LIMITED
80	U45203MP2008PTC020688	SHAMAN CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
81	U50103MP2005PTC017679	GENNEXT AUTO PRIVATE LIMITED
82	U24239MP2007PTC019263	HELP LIFE PRIVATE LIMITED
83	U80211MP2002PTC015015	PARTHAVI LEARNING MEDIA PRIVATE LIMITED
84	U74140MP2013PTC030551	SHUBH LEGAL SERVICES PRIVATE LIMITED
85	U70101MP2012PTC027440	SHRI KALYANI PINNACLE INFRATOWERS PRIVATE LIMITED
86	U70101MP2012PTC029122	SANJAY REALTIES PRIVATE LIMITED
87	U45200MP2010PTC023643	MEHREEN REALTY PRIVATE LIMITED

S. No.	CIN	COMPANY NAMES
88	U24211MP2007PTC020123	Reliable Agro India Private Limited
89	U52393MP2012PTC029158	BABA TRADEWING PRIVATE LIMITED
90	U24299MP2012PTC029722	Rohan Phosphate Private Limited
91	U51505MP1995PTC009517	ANNADHA TRADING PVT LTD
92	U52590MP2009PTC022406	DREAM LIFE TRADING PRIVATE LIMITED
93	U51900MP2011PTC026530	SIMTRAD TRADELINK PRIVATE LIMITED
94	U34102MP2003PTC016139	SHETH TRACTORS AND MOTORS PRIVATE LIMITED
95	U45200MP2010PTC024967	GALAV LAND DEVELOPERS & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
96	U70101MP2011PTC025354	BLUE CARPET INFRATECH PRIVATE LIMITED
97	U32204MP2013PTC030267	JRB TELECOM PRIVATE LIMITED
98	U74140MP2012PTC027688	AROHI MEDIA PRIVATE LIMITED
99	U45200MP2008PTC020431	SPACE MARKER ESTATES PRIVATE LIMITED
100	U74900MP2013PTC031123	NAV BUCKS GAINER SERVICES PRIVATE LIMITED
101	U74140MP2011PTC025968	KNOBAL KNOWLEDGE SERVICES PRIVATE LIMITED
102	U14200MP2012PTC027801	METABOLT RESOURCES PRIVATE LIMITED
103	U74140MP2010PTC023323	SEWAK INDIA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
104	U74210MP2007PTC019962	KASREKAR BROTHERS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED
105	U04520MP2005PTC017223	SAMIKSHA CONSTRUCTIONS ENTRO PRIVATE LIMITED
106	U15500MP2012PTC027832	Pithampur Beverages Private Limited
107	U74900MP2012PTC028763	BIRDS EYE FACILITY MANAGEMENT INDIA PRIVATE LIMITED
108	U80302MP2013PTC030687	SOCIAL BUSINESS TRANSFORMATION CONSULTING SERVICES PVT LTD
109	U74140MP2002PTC014939	DHWANI TECHNOLOGIES AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
110	U45200MP2013PTC030594	REUM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
111	U70101MP2011PTC025994	DHAWALGIRI DEVCON PRIVATE LIMITED
112	U70100MP2011PTC025665	EMERALD INFRA CON PRIVATE LIMITED
113	U25202MP2013PTC030085	ADITYASAGAR MOVERS & PACKERS PRIVATE LIMITED
114	U70101MP2011PTC025573	HSB DEVCON PRIVATE LIMITED
115	U70100MP2011PTC025420	MANGALAM DEVCON PRIVATE LIMITED
116	U70101MP2011PTC025999	NEELGIRI DEVCON PRIVATE LIMITED
117	U70101MP2011PTC026002	SAPTAGIRI INFRABUILD PRIVATE LIMITED
118	U15141MP1990PLC005744	SHANTI OIL LIMITED
119	U45203MP1995PTC009848	DISHA CONSTRUCTIONS PVT LTD
120	U52520MP2005PTC017587	Millennium Machines and Marketing Private Limited

S. No.	CIN	COMPANY NAMES
121	U70101MP2010PTC023059	SHUBH SAMPADA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
122	U45200MP2007PTC019859	Shri Krishna Rock Drills Private Limited
123	U32209MP1992PTC007412	GALLIUM ELECTRONICS PVT LTD
124	U45200MP2012PTC029814	REUM REALTORS PRIVATE LIMITED
125	U70101MP2011PTC026000	HIMGIRI DEVCON PRIVATE LIMITED
126	U70102MP2014PTC032157	Ashiyana Dream Townships Private Limited
127	U67120MP1995PTC009181	R.S.D. CAPITAL MARKET PVT LTD
128	U28900MP2012PTC028609	SKY TECH INSTRUMENTATION AND AUTOMATION PRIVATE LIMITED
129	U36100MP2010PTC023848	G K Furnitech Private Limited
130	U70109MP2014PLC032071	DHL INFRABUILD LIMITED

MUKESH KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Pune, the 8th May 2015

No. ROC/PTE/560(5)/2015/4319— Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act 1956, that the name of following companies have this day been struck off the Register and the said companies are dissolved:—

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1	U65992PN2012PTC143997	SWAPNSIDDHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2	U74900PN2012PTC144462	CHAKOTE PACKAGING SOLUTION PRIVATE LIMITED
3	U72900PN2013PTC147042	AHILANE PRIVATE LIMITED
4	U31200MH1976PTC019185	MONITOR ELECTRONIICS PVT LTD
5	U74140PN2008PTC132405	DIRAV CONSULTING PRIVATE LIMITED
6	U72900PN2010PTC136415	AV-OUTSOURCE (INDIA) PRIVATE LIMITED
7	U70101PN2012PTC143428	SPAAR BUILTCON PRIVATE LIMITED
8	U51909PN2011PTC141052	M N DAIRY TRADES PRIVATE LIMITED
9	U74110PN2008PTC131357	PERFECT LEGAL SOLUTIONS (L.P.O.) PRIVATE LIMITED
10	U29244PN2013PTC147414	MORAY ENGINEERS FOR AUTOMATION & CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
11	U19201PN2010PTC136024	GAURI AGRO PRESERVATIONS PRIVATE LIMITED
12	U45200PN2012PTC142746	GD VASTU NIRMAN PRIVATE LIMITED
13	U01110PN2011PTC139348	Sahyagiri Agro Realty & Energy Private Limited
14	U72200PN1999PTC014187	ALLIED COSMIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
15	U74210MH1989PTC054535	RANADE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
16	U45200PN2013PTC148170	GIYA HOUSING PRIVATE LIMITED
17	U72200PN2004PTC018768	DIVINET ACCESS TECHNOLOGIES SALES AND SERVICES PRIVATE LIMITED
18	U72900PN2009PTC134249	KADROIT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
19	U01122PN2004PTC018854	FARMER AGRO FOOD PROCESSING (INDIA) PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	Name of the Company
20	U74999PN2010PTC137130	CogniCare Training Solutions Private Limited
21	U72300PN2010PTC136558	TRILLASEC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
22	U24100PN2010PTC135257	NeoZoi Pharmaceuticals Private Limited
23	U74999PN2013PTC147605	VALUE GLOBAL RESEARCH PRIVATE LIMITED
24	U63040PN2008PTC132111	Summil Holiday Planners Private Limited
25	U26109PN1980PTC019954	REGLIN OPTHALMICS PRIVATE LIMITED
26	U85110PN2007PTC131004	NANDGUDE PATIL HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED
27	U74140PN2002PTC017302	DOYEN WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
28	U13200PN2010PTC137836	Sheloli Minerals Company Private Limited
29	U15549PN2009PTC134264	BAFNA RAISIN INDIA PRIVATE LIMITED
30	U74110PN2008PTC132699	citylegal corporate services private limited
31	U45203PN2007PLC130707	BHAPKAR INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT INDIA LIMITED
32	U29100PN2011PTC141188	ROCK ENGITECH PRIVATE LIMITED
33	U29100PN2011PTC141187	KUNAL TECHNOMECH PRIVATE LIMITED
34	U32104PN2004PTC020007	GENX WIRE GRAPH INDIA PRIVATE LIMITED
35	U74200PN2007PTC130907	Teknoseal Engineering Solutions Private Limited
36	U72200PN2013PTC147506	SUNANDA SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
37	U15422PN2012PTC143443	SHRIGURUDEV SUGAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
38	U45200PN2007PLC130404	Ram India Landmarks Limited
39	U93000PN2012PTC143856	FORTUNE BIZCON PRIVATE LIMITED
40	U29299PN2006PTC021780	INNOVATIVE ANALYTICALS PRIVATE LIMITED
41	U72900PN2010PTC137065	P E TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
42	U01122PN2013PTC146881	PRANAV KRUSHI INDIA PRIVATE LIMITED
43	U74999PN2005PTC145367	ENGAGE INFOMEDIA INDIA PRIVATE LIMITED
44	U24232PN2010PLC136389	MEDIPRO PHARMA LIMITED
45	U80222PN2004PTC018877	POONA BUSINESS SCHOOL (INDIA) PRIVATE LIMITED
46	U74300PN2008PTC132241	POOJA PUBLICITY PLUSS PRIVATE LIMITED
47	U92142PN2011PTC140879	V2R EVENTS PRIVATE LIMITED
48	U74140MH1996PTC103765	ARTH FINANCIAL AND MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
49	U01122PN2014PTC150736	Phaltan Agro Private Limited
50	U74900PN2009PTC134974	GREEN TURFS ESTATES AND FARMS PRIVATE LIMITED
51	U74999PN2011PTC141125	SWASTIK FACILITY SERVICES PRIVATE LIMITED
52	U00359PN2006PTC022252	KUGAL ENGINEERING PRIVATE LIMITED
53	U24293PN2010PTC135443	RALPH CHEMSOL PRIVATE LIMITED
54	U74900PN2009PTC134687	AVIRAMA EXIM PRIVATE LIMITED
55	U51909PN2010PTC135466	ARCOBALENO SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED
56	U31200PN2003PTC017561	POWER CAP ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
57	U72200PN2012PTC142028	SEEMA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
58	U55101PN2009PTC135064	Suvarna Durg Beach Resorts Private Limited
59	U72900PN2007PTC138568	HAMILTON DESIGN INDIA PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	Name of the Company
60	U01403PN2011PTC141252	PUSHKARAJ FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
61	U74920PN2011PTC141350	Stonewall Security Services Private Limited
62	U45203PN2008PTC131640	BHANDARI INFRASTRUCTURE INDIA PRIVATE LIMITED
63	U55101PN2006PTC129287	CORAL HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
64	U74900PN2008PTC132858	MIND SPACE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
65	U24118MH1987PTC043930	ESBEE INDUSTRIAL COMBINES PVT LTD
66	U55101PN2011PTC139867	ISME CAFES PRIVATE LIMITED
67	U45200PN2013PTC149375	K.M Infrastructure & Construction Development Private Limited
68	U72200PN2009PTC135102	Seamless Web Solutions Private Limited
69	U01111PN2001PTC016077	SHRI SAILAX FARM SERVICES PRIVATE LIMITED
70	U20299PN2006PTC129104	XCALIBUR INTERIOR INFRASTRUCTURE COMPANY PRIVATE LIMITED
71	U34106PN2013PTC148427	VERSTECH PRIVATE LIMITED
72	U23203PN2011PTC140754	PRANIK FUEL PRIVATE LIMITED
73	U74900PN2013PTC147304	Swayamsiddha Socio-economic Projects Private Limited
74	U71220PN2009PTC134385	Varad Vinayak Equipment and Property Rental Private Limited
75	U00130PN2006PTC022332	MANTRA MINING (INDIA) PRIVATE LIMITED
76	U45200PN2013PTC146885	NALINOTTAM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
77	U72200PN2002PTC017322	BRISA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
78	U01400PN2011PTC138889	YASHODHAN AGROPLAST PRODUCTS PRIVATE LIMITED
79	U72200PN2014PTC151596	Robust One Tech Private Limited
80	U51909PN2005PTC021439	DIAMOND QUEEN TRADING AND CONSULTING PRIVATE LIMITED
81	U29194PN2000PTC015657	COTMAC GASTEC PRIVATE LIMITED
82	U72200PN2005PTC021330	icarz Software (India) Private Limited
83	U72900PN2010PTC136236	HI TECH IT SERVICES PRIVATE LIMITED
84	U60200PN2007PTC131126	PALANDE CARGO & LOGISTICS PRIVATE LIMITED
85	U29100PN2011PTC141367	JAI TULJA BHAVANI ELECTRO EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
86	U29299PN2013PTC146403	FEMTO SCIENTIFIC INDIA PRIVATE LIMITED
87	U72900PN2005PTC021420	D-SQUARE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
88	U72900PN2008PTC132401	LOHIT SOFTECH PRIVATE LIMITED
89	U40104PN2009PTC134158	VIRAXA ENERGY PRIVATE LIMITED
90	U51909PN2011PTC138798	VARDAYINI ELECTRIC ENGINEERING PRIVATE LIMITED
91	U31909PN2011PTC139916	KHUSHI ELECTRONICS SERVICES PRIVATE LIMITED
92	U67190PN2009PTC133585	MORE FINANCE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
93	U29248PN2010PTC136705	RCG ENGINEERING PRIVATE LIMITED
94	U45200PN2009PTC134616	VEDIKA HOUSING PRIVATE LIMITED
95	U72400PN2009PTC134276	ABS TECHNO IT SERVICES PRIVATE LIMITED
96	U70101PN2010PTC137348	CYGNET REALTY & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	Name of the Company
97	U31909PN1990PTC057790	STORK ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
98	U70200PN2010PTC136883	SHIVARINARAYAN REALTY PRIVATE LIMITED
99	U72900PN2009PTC134788	MIND BLOCK MEDIA PRIVATE LIMITED
100	U45200PN2012PTC144790	Brisk Infra Private Limited
101	U63030PN2009PLC133481	BAVADA NAGESHWAR LOGISTICS LIMITED
102	U74140PN2005PTC021151	PERENNIAL INNOVATIVE SERVICES PRIVATE LIMITED
103	U32109PN2005PTC020184	UNITEL OFFICE AUTOMATION PRIVATE LIMITED
104	U74140PN2008PTC131966	JDS FINANCIAL MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
105	U72200PN2012PTC143105	RHEBOKS PRIVATE LIMITED
106	U15428PN2007PLC130884	SIDDHIVINAYAK ALCOHOL LIMITED
107	U72900PN2006PTC021918	InfoPort Solutions Private Limited
108	U74140PN2011PTC139911	SUNAH CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
109	U74140PN2001PTC015721	SUVI CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
110	U70102PN2006PTC129063	VAASTUMITRA REALTORS PRIVATE LIMITED
111	U01400PN2011PTC141711	K R S Agro Private Limited
112	U35110PN2008PTC131226	RAJAPUR SHIPYARDS PRIVATE LIMITED
113	U74900PN2010PTC135862	UNI-TECH VALUERS AND DESIGNERS PRIVATE LIMITED
114	U74999PN2002PTC016678	ALAYA CONSULTING PRIVATE LIMITED
115	U65910PN1991PTC059645	HASTIMAL MUNOT INVESTMENTS PRV LTD
116	U65910PN1991PTC059644	ULHAS INVESTMENTS PRV LTD
117	U67110PN1991PTC059646	VILAS MUNOT INVESTMENTS PRV LTD
118	U74900PN2011PTC138987	ASTUTE INDUSTRIAL PARK PRIVATE LIMITED
119	U45200PN2010PTC137163	Vaha Infrastructure Services Private Limited
120	U40300PN2010PTC137208	Fuerza Infrastructure Services Private Limited

S. D. PATIL
Asst. Registrar of Companies
Maharashtra

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in